



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6—जनवरी 12, 2007 (पौष 16, 1928)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6—JANUARY 12, 2007 (PAUSA 16, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2007

सेना शाखा

सं. 01, दिनांक 1 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टिनेंट बनाया जाता है :—

राम वीर सिंह (टीए-42658), इंजीनियर, 16 मार्च 2006

शेलेश सिंह चौहान (टीए-42648), इन्फैन्ट्री, 11 अक्टूबर 2005

संजय प्रभाकर रोले (टीए-42649), इन्फैन्ट्री, 14 अक्टूबर 2005

उत्तम चक्रवर्ती (टीए-42650), इन्फैन्ट्री, 24 अक्टूबर 2005

शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय (टीए-42651), इन्फैन्ट्री, 24 अक्टूबर 2005

पलदेन ठाकुर (टीए-42652), इन्फैन्ट्री, 26 अक्टूबर 2005

कीर्ति कुमार एन दवे (टीए-42653), इन्फैन्ट्री, 13 अक्टूबर 2005

डेनिस डी मोन्टी (टीए-42654), इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2005

रवि एम बिष्ट (टीए-42655), इन्फैन्ट्री, 25 नवम्बर 2005

के शिवा शेखर राजू (टीए-42656), इन्फैन्ट्री, 09 नवम्बर 2005

बखराव्गॉंग श्याम कुर्बाह (टीए-42657), इन्फैन्ट्री, 23 दिसम्बर 2005

कुमार शर्मा (टीए-42659), इन्फैन्ट्री, 15 जनवरी 2006

जयकर मिथील सुरेश (टीए-42661), इन्फैन्ट्री, 24 अप्रैल 2006

नितिन जैन (टीए-42662), इन्फैन्ट्री, 24 अप्रैल 2006

संजय कुमार चौहान (टीए-42663), इन्फैन्ट्री, 10 अप्रैल 2006

एन. कालियापन

अवर सचिव

सं. 02, दिनांक 7 दिसम्बर 2006—राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 04 मार्च 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित

श्रल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये तारीख 04 नवम्बर 2000 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिये तारीख 04 मार्च 2000 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 04 मार्च 2005 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जायेगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

क्रम सं., एस एस नम्बर, आई सी नम्बर, नाम एवं आर्म/सर्विस

93. एस एस 38369, आई सी 64879एन, विक्रम देव सिंह, इन्फैन्ट्री

एम एल एन श्रवण कुमार

कर्नल

कर्नल एम एस-7

सं. 03, दिनांक 7 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2004 से)

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र जोकि 30 जुलाई 2005 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है :--

निखिल दुबे (आईसी-64509एन), इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता सैयद अशरद अली (आईसी-64508एल), एएससी तथा राहुल पाण्डे (आईसी-64532एफ), आर्टी ज्येष्ठता संदीप सिंह (आईसी-64531वाई), के लिये प्रकाशित किया जाए।

(ले. के पद पर 11 दिसम्बर 1999 से)

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र, जोकि दिनांक 02 दिसम्बर 2000 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है :--

दिपांकर दास (आईसी-59464पी), इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता नितिन उपाध्याय (आईसी-59463एम), एडी के लिये प्रदर्शित किया जाए।

चन्द्र शेखर

ले. कर्नल

सहायक सेना सचिव (एमएस-8बी)

एकीकृत मुख्यालय : रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 04, दिनांक 6 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 06 जून 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा (सामान्य सेवा) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

विद्युत शाखा (सामान्य सेवा)

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

केदार प्रवीण महादेव (52112के), अस्थायी, 11 अगस्त 2003

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डीईएस/अनु-1/03 दिनांक 07 जून 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्मिक शाखा (एन ए आई कैडर) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

कार्मिक शाखा (एन ए आई कैडर)

आर विनीत कृष्णन (05468ए), स्थायी--14 जुलाई 2003

मनप्रीत सिंह (05472के), स्थायी--21 जुलाई 2003

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 29 मई 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी कैडर), वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा) एवं वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैडर) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

अभियांत्रिकी शाखा (सामान्य सेवा)

राजेश शर्मा (42375एफ), अस्थायी--10 फरवरी 2003

राजेश कुमार साहुकारी (42377के), अस्थायी--10 फरवरी 2003

पुनीत कुमार सिंह (42379आर), अस्थायी--10 फरवरी 2003

आर विगनेश (42380टी), अस्थायी--10 फरवरी 2003

आनन्द (42381डब्ल्यू), अस्थायी--10 फरवरी 2003

दिनेकर अरोरा (42382वाई), अस्थायी--10 फरवरी 2003

सुकान्ता विश्वास (42385बी), अस्थायी--10 फरवरी 2003

हेमन्त बारकु कण्डेकर (42386एफ), अस्थायी--10 फरवरी 2003

अमोल कुमार नालावडे (42390आर), अस्थायी--10 फरवरी 2003

के जी अभिमान (42396बी), अस्थायी--10 फरवरी 2003

करण चट्वा (42397एफ), अस्थायी--10 फरवरी 2003

नरेश कुमार गथानिया (42398एच), अस्थायी--10 फरवरी 2003

एम रंजीत मोहन (42400एन), अस्थायी--10 फरवरी 2003

टी प्रभार (42401आर), अस्थायी--10 फरवरी 2003

संतोष कुमार (42402टी), अस्थायी--13 फरवरी 2003

वी सुरेश कुमार (42403 डब्ल्यू), अस्थायी--10 फरवरी 2003

के विजय कृष्ण (42404वाई), अस्थायी--12 फरवरी 2003

के शोधन (42406ए), अस्थायी--13 फरवरी 2003

ए एम प्रवीण कुमार (42407बी), अस्थायी--17 फरवरी 2003

मनीष सिंह (42408एफ), अस्थायी--17 फरवरी 2003
 एस मंजूनाथ (42409एच), अस्थायी--17 फरवरी 2003
 जार्ज निजो एन्टोनी (42411एन), अस्थायी--19 फरवरी 2003
 एस दिनेश प्रभु (42412आर), अस्थायी--19 फरवरी 2003
 सचिन भगवंत निकम (42413टी), अस्थायी--19 फरवरी 2003
 प्रशांत तिपन्ना देवाकर (42414डब्ल्यू), अस्थायी--15 फरवरी 2003

अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी कैंडर)

वित्ठल पोडागटियापल्ली (42375एफ), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 अतुल वर्मा (42378एन), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 ए सेन्थील कुमार (42383जेड), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 रविन्द्र कश्तुरी (42387एच), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 विजय संगवान (42388के), अस्थायी--10 फरवरी 2003

वैद्युत शाखा (सामान्य)

सतीश कुमार कवाला (51894आर), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 आर श्रीनिवासन (51895टी), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 वॉबी वर्गीस (51896डब्ल्यू), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 जी मथान (51897वाई), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 पुष्पक रॉय (51899ए), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 अमन अग्निहोत्रि (51900बी), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 माराद वसावराज (51902एच), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 सिमॉन सायरिल (51903के), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 शुर्भकर भट्टाचार्या (51904एन), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 एल मुथुकुमार (51907डब्ल्यू), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 जे विजय संथीलराज (51910ए), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 मनप्रीत सिंह (51911बी), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 वी विश्वनाथ (51912एफ), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 प्रेम कुमार राजिन्द्रन (51913एच), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 अश्विन सुन्दरेश (51915एन), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 ए आनन्द कुमार (51916आर), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 एम के राजेश कुमार नायडु (51917टी), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 अरुणजीत सिंह तलवार (51918डब्ल्यू), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 बी अमित (51922बी), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 डी गोकुल (51926एन), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 मोहन मथियालगन (51927आर), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 पी वी नरसिम्हाकुमार (51930वाई), अस्थायी--14 फरवरी 2003

अभिषेक दामोदरन (51931जेड), अस्थायी--19 फरवरी 2003

वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैंडर)

जे हरिश कुमार (51898जेड), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 डी के श्रीकांत (51901एफ), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 सुजीत मैथ्यु (51908वाई), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 एस मागेश (51909जेड), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 गौरव हजारे (51914के), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 बी प्रसन्ना (51924एच), अस्थायी--10 फरवरी 2003
 डी राजेन्द्र कुमार (51928टी), अस्थायी--12 फरवरी 2003

राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-1/03 दिनांक 22 मई 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्मिक शाखा (सामान्य सेवा) कार्मिक शाखा (संभरण कैंडर), कार्मिक शाखा (संभरण खान-पान कैंडर) एवं कार्मिक शाखा (वायु मार्ग नियंत्रण कैंडर) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब ले. के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म एवं कमीशन की तिथि

कार्मिक शाखा (सामान्य सेवा)

लियो सिल्वानो दियास (05320आर), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 अभिषेक सिंह सकरवार (05321टी), अस्थायी--25 जुलाई 2002
 अमित कुमार (05322डब्ल्यू), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 वी एच अविनाश (05323वाई), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 रितेश शर्मा (05324जेड), अस्थायी--20 जुलाई 2002
 अनुराग त्यागी (05325ए), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 नवीन अरोरा (05326बी), अस्थायी--21 जुलाई 2002
 संदीप कुमार साहा (05327एफ), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 विनोद कुमार सुनोत्रा (05328एच), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 वी श्रीकांत (05329के), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 बी नरेन्द्र (05330एन), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 दीपक प्रसाद (05331आर), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 अक्षय विवेक राव (05332टी), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 राजीव कुमार झा (05333डब्ल्यू), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 अरूण कुमार सिंह (05334वाई), अस्थायी--15 जुलाई 2002
 वमण अमरजीत किनी (05335जेड), अस्थायी--15 जुलाई 2002

कार्मिक शाखा (संभरण कैंडर)

संदीप सतीश रणदिवे (05336ए), अस्थायी--12 अगस्त 2002
 अमित मारवाह (05337बी), अस्थायी--12 अगस्त 2002

प्रवीण मलिक (05338एफ), अस्थायी--12 अगस्त 2002

जसमीत नेहल (05339एच), अस्थायी--12 अगस्त 2002

अपर्णा रमेश जोशी (05340के), अस्थायी--12 अगस्त 2002

विकाश सूद (05341एन), अस्थायी--12 अगस्त 2002

शिल्पा (05342आर), अस्थायी--12 अगस्त 2002

रवेता सेट्टी (05343टी), अस्थायी--12 अगस्त 2002

रमेन्द्र सिंह (05344डब्ल्यू), अस्थायी--12 अगस्त 2002

प्रियंका गुप्ता (05345वाई), अस्थायी--12 अगस्त 2002

भावना सलारिया (05346जेड), अस्थायी--12 अगस्त 2002

सुनैना मरियम अगस्टाइन (05347ए), अस्थायी--12 अगस्त 2002

दिपिका सिंह (05348बी), अस्थायी--12 अगस्त 2002

सुनैना विजय पराडकर (05349एफ), अस्थायी--12 अगस्त 2002

परमजीत सिंह (05350एच), अस्थायी--12 अगस्त 2002

प्रिया खुराना (05351के), अस्थायी--12 अगस्त 2002

पूजा राजपूत (05352एन), अस्थायी--18 अगस्त 2002

कार्मिक शाखा (संभरण खान-पान कैंडर)

जार्ज जेवियर (05353आर), अस्थायी--12 अगस्त 2002

परमप्रीत सिंह (05354टी), अस्थायी--12 अगस्त 2002

विक्रान्त मल्हण (05355डब्ल्यू), अस्थायी--12 अगस्त 2002

एन विमल (05356वाई), अस्थायी--12 अगस्त 2002

कार्मिक शाखा (वायु मार्ग नियंत्रण कैंडर)

पुष्पा पाण्डेय (05310टी), अस्थायी--12 अगस्त 2002

सुनील कुमार यादव (05311डब्ल्यू), अस्थायी--12 अगस्त 2002

सिद्धार्थ जेटली (05312वाई), अस्थायी--12 अगस्त 2002

हरमीत कौर (05313जेड), अस्थायी--12 अगस्त 2002

समीर शौरी (05314ए), अस्थायी--12 अगस्त 2002

जयश्री सरकार (05315बी), अस्थायी--12 अगस्त 2002

जस्टीन जे पुथुर (05316एफ), अस्थायी--12 अगस्त 2002

आदित्य सिंह राणा (05317एच), अस्थायी--12 अगस्त 2002

रूचि भाटिया (05318के), अस्थायी--12 अगस्त 2002

नीलू सिनसिनवार (05319एन), अस्थायी--12 अगस्त 2002

ओम प्रकाश वर्मा

कमांडर

संयुक्त निदेशक (आर एण्ड आर-IV)

सेना शाखा

सं. 05, दिनांक 1 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

पिछली तिथि से वरीयता

टीए-42590 लेफ्टिनेंट शन्तनु नारायण शिम्पी जिनको प्रादेशिक सेना एक्ट 1948 के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2003 से लेफ्टिनेंट के पद पर इन्फैन्ट्री टीए में कमीशन प्रदान किया गया है, को उनकी भारतीय नौसेना में 01 साल 07 महीने की नियमित सेवा (02 जुलाई 2001 से 31 जनवरी 2003 तक) के कारण प्रादेशिक सेना विनियम 1948 के पैरा 25ए तथा 38ए के अन्तर्गत वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए दिनांक 31 मई 2002 से लेफ्टिनेंट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है।

एन. कालियापन

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 06, दिनांक 2 दिसम्बर 2006--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अजय आनन्द (जेसी-402196एल), 12 अप्रैल 2006*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-402658के), 01 जून 2006

सूबेदार कलाधारी (जेसी-402308ए), 01 जून 2006

सूबेदार बेअन्त राम (जेसी-402205एफ), 05 जून 2006*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-402035एच), 01 जुलाई 2006

सूबेदार सतेन्द्र कुमार शुक्ला (जेसी-402725एम), 02 सितम्बर 2006*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार पुरषोत्तम सिंह पटियाल (जेसी-402370एम), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार उमैद सिंह (जेसी-403133पी), 03 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-403093वाई), 08 जनवरी 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार मुनी राम तिकी (जेसी-403146एम), 06 फरवरी 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार करण सिंह (जेसी-403371एफ), 31 जनवरी 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह नेगी (जेसी-403389एक्स), 01 जनवरी 2006
- नायब सूबेदार मूल चन्द (जेसी-403428एल), 01 जनवरी 2006
- नायब सूबेदार मटुक सिंह (जेसी-403147पी), 01 जनवरी 2006
- नायब सूबेदार हरीश चन्द दत्त (जेसी-403148एक्स), 01 जनवरी 2006
- नायब सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-403392एक्स), 13 मार्च 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार चाँद सिंह (जेसी-403512एल), 31 मई 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार इन्द्रपाल सिंह (जेसी-403117एक्स), 16 फरवरी 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जनवरी 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रन सिंह (जेसी-403326पी), 22 जनवरी 2006
- नायब सूबेदार कुलदीप सिंह मनहास (जेसी-403211एफ), 13 मार्च 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह चौधरी (जेसी-402999एक्स), 01 फरवरी 2006
- नायब सूबेदार वीरेन्द्रपाल सिंह (जेसी-403082एम), 01 फरवरी 2006
- नायब सूबेदार धीरेन्द्र कुमार (जेसी-403094एफ), 01 फरवरी 2006
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-403355के), 28 फरवरी 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-403434वाई), 01 मार्च 2006
- नायब सूबेदार चेत राम हरीजन (जेसी-403330एक्स), 01 मार्च 2006
- नायब सूबेदार गजवीर सिंह (जेसी-403517के), 01 मार्च 2006
- नायब सूबेदार बीर बहादुर (जेसी-403135ए), 01 मार्च 2006
- नायब सूबेदार फरेन चन्द्र बोरा (जेसी-403273पी), 23 मार्च 2006
- नायब सूबेदार गोपालन के पी (जेसी-403258एम), 01 अप्रैल 2006
- नायब सूबेदार नागरजन आर (जेसी-403279एच), 01 अप्रैल 2006
- नायब सूबेदार जी नानासेकरन एम (जेसी-403304डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006
- नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-403391पी), 01 अप्रैल 2006
- नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-403138एन), 01 अप्रैल 2006
- नायब सूबेदार झबर सिंह (जेसी-403186एन), 01 अप्रैल 2006
- नायब सूबेदार राम सुरेश यादव (जेसी-403205एन), 13 अप्रैल 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार राऊत (जेसी-403343पी), 13 अप्रैल 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार पंचम सिंह (जेसी-403176के), 16 जून 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-403462एल), 01 मई 2006
- नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-403476एल), 01 मई 2006
- नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-403263वाई), 16 मई 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-403472पी), 21 मई 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार मायाधर महानी (जेसी-403262पी), 31 मई 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रनबीर (जेसी-403503के), 21 जून 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार कृष्ण पाल (जेसी-403443ए), 30 अगस्त 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार राम कुमार प्रधान (जेसी-403150पी), 01 जून 2006
- नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-403315एच), 30 अगस्त 2006 *
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम लाल साहू (जेसी-403243के), 01 जून 2006

नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-403244एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-403578एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार जग राम (जेसी-403583एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार बनमाली परिदा (जेसी-403396एन), 01 जून 2006

नायब सूबेदार दलवीर सिंह (जेसी-403187डब्ल्यू), 01 जून 2006

नायब सूबेदार राम राज (जेसी-403239एफ), 11 जून 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-403603पी), 14 जून 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कल्याण राम (जेसी-403584पी), 01 जुलाई 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बाली राम सिंह (जेसी-403164पी), 03 जुलाई 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-403395एल), 02 सितम्बर 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजपाल सिंह चहर (जेसी-403514डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार बालादीन (जेसी-403356एम), 10 जुलाई 2006 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) बलजीत सिंह (जेसी-403131के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) प्रमोद कुमार सिंह (जेसी-403154एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम भरोसी लाल (जेसी-403157वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) उमेश चोधरी (जेसी-403203एच), 01 मई 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) मोहन सिंह मेंहता (जेसी-403192एफ), 01 जून 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) जय प्रकाश (जेसी-403216ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) शम्भू सिंह (जेसी-403217एच), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रन सिंह (सं. 13688412वाई अब जेसी-403878एच), 08 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश गौतम (सं. 13686857एम अब जेसी-403879एल) 01 जनवरी 2006

हवलदार तेजवीर सिंह चहर (सं. 13687030एच अब जेसी-403880ए), 21 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 13687045एल अब जेसी-403881एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार राम निवास (सं. 13687204एक्स अब जेसी-403882एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार राज सिंह (सं. 13684241ए अब जेसी-403883एन), 11 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कमल सिंह (सं. 13684484एल अब जेसी-403884डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार हरी राम (सं. 13685801एन अब जेसी-403885वाई) 01 जनवरी 2006

हवलदार रामवीर सिंह (सं. 13687066एफ अब जेसी-403886एफ), 08 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार नवरंग सिंह (सं. 13687269एल अब जेसी-403887के), 05 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जय पाल (सं. 13688276एन अब जेसी-403888एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 13686449एफ अब जेसी-403889पी), 31 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अवधेश कुमार (सं. 13688483वाई अब जेसी-403890के), 01 जनवरी 2006

हवलदार चंद्रा एन्ड (सं. 13688451एक्स अब जेसी-403891एम), 01 जनवरी 2006

हवलदार शिव बिलाश सिंह यादव (सं. 13688391एन अब जेसी-403892पी), 02 जनवरी 2006

हवलदार सुख लाल सिंह (सं. 13686844पी अब जेसी-403893एक्स), 04 जनवरी 2006

हवलदार अशोकन एन वी (सं. 13688694एच अब जेसी-403894ए), 20 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार धरम पाल सिंह (सं. 13688744एच अब जेसी-403895एच), 25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मदन लाल (सं. 13688427एफ अब जेसी-403896एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार हरी बाबू (सं. 13684730एल अब जेसी-403897एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13688467एच अब जेसी-403898डब्ल्यू), 18 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार क्रिशन चंद (सं. 13688407एन अब जेसी-403899वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 13684174ए अब जेसी-403900एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार भिक्ष्याकारी साहू (सं. 13686838एफ अब जेसी-403901एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार तेजिंदर सिंह (सं. 13688509के अब जेसी-403902एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार शशी शंकर सिंह (सं. 13690754एल अब जेसी-403903डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार जमशेद अली (सं. 13688964एम अब जेसी-403904वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार हरी ओम सिंह (सं. 13688996पी अब जेसी-403905एफ), 03 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं. 13688590एफ अब जेसी-403906के), 13 फरवरी 2006

हवलदार बजरंग सिंह (सं. 13687275वाई अब जेसी-403907एम), 01 मार्च 2006

हवलदार गनेशा राम (सं. 13685802डब्ल्यू अब जेसी-403908पी), 01 मार्च 2006

हवलदार भगवान कुशवाहा (सं. 13684282के अब जेसी-403909एक्स), 27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार धन बहादुर छेत्री (सं. 13684952ए अब जेसी-403910एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (सं. 13685330एल अब जेसी-403911पी), 17 फरवरी 2006

हवलदार शंकर लाल (सं. 13688599डब्ल्यू अब जेसी-403912एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार लालू सिंह (सं. 13690988पी अब जेसी-403913ए), 01 मार्च 2006

हवलदार राम बिचार (सं. 13685498एक्स अब जेसी-403917डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रमोद पी जी (सं. 13691460के अब जेसी-403918वाई), 13 मार्च 2006

हवलदार राजन सी (सं. 13692647एच अब जेसी-403919एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रेजीमोन एम (सं. 13692815डब्ल्यू अब जेसी-403920डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) लाल किशोर प्रसाद चौरसिया (सं. 13686672एल अब जेसी-403914एच), 01 मार्च 2006

हवलदार (क्लर्क) क्रिशन कुमार (सं. 13687059एल अब जेसी-403915एल), 01 मार्च 2006

हवलदार (क्लर्क) भुपेन्द्र सिंह (सं. 13687113एन अब जेसी-403916एन), 01 मार्च 2006

हवलदार (क्लर्क) मिहिर कुमार पौल (सं. 13687115वाई अब जेसी-403936एफ), 01 मई 2006

हवलदार (क्लर्क) कंवर साहब (सं. 13686556एच अब जेसी-403946एल), 01 जून 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देवेन्द्र कुमार (सं. 13685867के अब जेसी-403921वाई),
01 अप्रैल 2006

हवलदार विदेश कुमार (सं. 13687512एक्स अब जेसी-403922एफ),
26 दिसम्बर 2005

हवलदार इन्द्रपाल चतुर्वेदी (सं. 13689353के अब जेसी-403923के),
01 जुलाई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश चन्द्र (सं. 13687799ए अब जेसी-403924एम),
23 मार्च 2006

हवलदार अवधेश कुमार (सं. 13689567एक्स अब जेसी-403925पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार जादव राजेन्द्र रूप चन्द (सं. 13688571डब्ल्यू अब
जेसी-403926एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार बास देव (सं. 13687826वाई अब जेसी-403927ए),
01 अप्रैल 2006

हवलदार दीवान सिंह चौहान (सं. 13688814डब्ल्यू अब
जेसी-403928एच), 02 अप्रैल 2006

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13688574के अब जेसी-403929एल),
04 अप्रैल 2006

हवलदार नरेश सिंह (सं. 13687410एफ अब जेसी-403930ए),
16 अप्रैल 2006

हवलदार सुखदेव राम मेघवाल (सं. 13696207एम अब
जेसी-403931एच), 12 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्रीपाल सिंह (सं. 13688686के अब जेसी-403932एल),
21 अप्रैल 2006

हवलदार तनीगोंडला वी एन रेड्डी (सं. 13688582एच अब
जेसी-403933एन), 30 अप्रैल 2006

हवलदार लोकेश्वर बोरा (सं. 13684410डब्ल्यू अब
जेसी-403934डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13684037एफ अब जेसी-403935वाई),
15 मई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार त्रिभुवन उपमान्यू (सं. 13686668एच अब
जेसी-403937के), 01 मई 2006

हवलदार जोगा सिंह (सं. 3383313डब्ल्यू अब जेसी-403938एम),
26 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ब्रह्म प्रकाश (सं. 13688706एम अब जेसी-403939पी),
15 मई 2006

हवलदार गोविंदा राजन एम (सं. 13688707पी अब जेसी-403940के),
20 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार देवेन्द्र बहादुर थापा (सं. 13684612एक्स अब
जेसी-403941एम), 01 जून 2006

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 13684824एच अब जेसी-403942पी),
16 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एडविन लाकरा (सं. 13688134डब्ल्यू अब
जेसी-403943एक्स), 01 जून 2006

हवलदार मानिक चन्द्र राय (सं. 13689212पी अब जेसी-403944ए),
01 जून 2006

हवलदार शिव बचन सिंह कुशवाहा (सं. 13688492एफ अब
जेसी-403945एच), 24 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दिलीप सिंह (सं. 13684230एन अब जेसी-403948डब्ल्यू),
01 जून 2006

हवलदार राजेन्द्र कुमार यादव (सं. 13688066एन अब
जेसी-403949वाई), 01 जून 2006

हवलदार अमी लाल (सं. 13688067डब्ल्यू अब जेसी-403950एन),
15 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार फूल चन्द (सं. 13688154के अब जेसी-403951डब्ल्यू),
23 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महाबीर सिंह (सं. 13685059एम अब जेसी-403954के),
11 जून 2006

हवलदार दिनेश चन्द्र (सं. 13683566पी अब जेसी-403955एम),
12 जून 2006

हवलदार बाल कृष्ण महर (सं. 13686587एच अब जेसी-403956पी),
12 जून 2006

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 13687788एन अब जेसी-403957एक्स),
10 जुलाई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13685152एन अब जेसी-403958ए),
01 जुलाई 2006

हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 3383884पी अब जेसी-403959एच),
01 जुलाई 2006

हवलदार शोलेश कुमार ठाकुर (सं. 13688944वाई अब
जेसी-403960एक्स), 19 जुलाई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्रवण कुमार (सं. 13688697डब्ल्यू अब जेसी-403961ए),
16 मई 2006

हवलदार रन बहादुर (सं. 13688523डब्ल्यू अब जेसी-403962एच),
01 अगस्त 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 31 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गोमती सिंह (सं. 13683739एन अब जेसी-403963एल),
01 जून 2006

हवलदार राज कुमार साहू (सं. 13686058डब्ल्यू अब
जेसी-403964एन), 01 जून 2006

हवलदार राम नरेश (सं. 13687031एल अब जेसी-403965डब्ल्यू),
01 जून 2006

हवलदार घेवर राम डूडी (सं. 13689021ए अब जेसी-403966वाई),
18 जुलाई 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शिशु पाल (सं. 13689223एफ अब जेसी-403967एफ),
01 जून 2006

हवलदार संगम लाल गुप्ता (सं. 13686251एच अब
जेसी-403969एम), 14 जून 2006

हवलदार सन्त लाल (सं. 13689555एल अब जेसी-403970एफ),
25 जून 2006

हवलदार अनिल कुमार (सं. 13689104एल अब जेसी-403974वाई),
01 जुलाई 2006

हवलदार राजेश प्रसाद मिश्रा (सं. 13691210एच अब
जेसी-403978एम), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र प्रसाद भगत (सं. 13687121एम अब
जेसी-403947एन), 20 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) अमृत नारायण कुमार (सं. 13687125एच अब
जेसी-403953एफ), 07 जून 2006 *

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) तनमय बिश्वास (सं. 13687128डब्ल्यू अब
जेसी-403971के), 01 जुलाई 2006

हवलदार (क्लर्क) श्री राम सिंह (सं. 13686550एफ अब
जेसी-403972एम), 01 जुलाई 2006

हवलदार (क्लर्क) आदित्य कुमार हाजरा (सं. 13687142एच अब
जेसी-403973पी), 01 जुलाई 2006

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

आर डी एम रोहताश सिंह (सं. 13700395वाई अब जेसी-235047एन),
01 अक्टूबर 2006

दफादार रविकांत (सं. 13700406ए अब जेसी-235048डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2006

क्वचित कोर

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार राजबीर सिंह (जेसी-239526एम), 01 सितम्बर 2004

नायब रिसालदार अवकलवर कवाडू उधो (जेसी-240268एम),
09 जुलाई 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-239739ए), 07 फरवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पुरुषोत्तम सिंह (जेसी-238589ए), 13 अगस्त 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पान्डुरंग पोपट जाधव (जेसी-239253पी), 01 अक्टूबर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संत कुमार सिंह (जेसी-240009एफ), 08 अगस्त
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुखबिन्दर सिंह (जेसी-239566एन), 26 अगस्त 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अनन्त राम शर्मा (जेसी-238852एच), 20 अगस्त 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पी सिवा बालन (जेसी-239896एम), 12 नवम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुनाथन नायर एम एन (जेसी-239608पी), 05 सितम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जयपाल सिंह (जेसी-240154वाई), 12 जनवरी 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रिशी राम (जेसी-239827डब्ल्यू), 25 फरवरी 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम नरेश राम (जेसी-238427एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब रिसालदार मनबीर सिंह (जेसी-240173के), 01 अक्टूबर 2005

नायब रिसालदार रमन लाल (जेसी-240127पी), 14 फरवरी 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रनजीत सिंह (जेसी-240204वाई), 16 सितम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अवध बिहारी सिंह (जेसी-239653एफ), 08 अक्टूबर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दिनेश सिंह (जेसी-239918ए), 20 फरवरी 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बयास ठाकुर हरदयाल सिंह (जेसी-239622एफ), 22 अक्टूबर अगस्त 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शशीधरन कुमार के एन (जेसी-240248डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दत्तातरे हवलदार (जेसी-239035डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब रिसालदार एस राजेन्दरन (जेसी-239549एन), 01 नवम्बर 2005

नायब रिसालदार मेहतरे दत्तातरे बाबू राव (जेसी-239464एक्स), 09 नवम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बालसन टी एम (जेसी-240364वाई), 11 फरवरी 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बाज सिंह (जेसी-239628एच), 01 दिसम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मनजीत सिंह (जेसी-239535डब्ल्यू), 04 दिसम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसबीर सिंह (जेसी-239746डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मलकीत सिंह (जेसी-240272एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब रिसालदार सुखदेव सिंह (जेसी-240080पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब रिसालदार उदयवीर सिंह (जेसी-240449पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब रिसालदार हरपाल सिंह (जेसी-239349एक्स), 03 दिसम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कशीर सागर सदाशिव मारुती (जेसी-239365पी), 04 मार्च 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अगया राम (जेसी-239393एफ),
02 जनवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धर्मवीर सिंह (जेसी-239036वाई), 01 दिसम्बर 2005 *

नायब रिसालदार सुरेश कुमार राय (जेसी-239543एम), 20 दिसम्बर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमा पति तिवारी (जेसी-239609एक्स), 20 दिसम्बर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अशोक कुमार (जेसी-240196एल), 26 दिसम्बर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिन्दे गोरख महधू (जेसी-239808एल), 03 जनवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार तेज सिंह (जेसी-239817एम), 03 जनवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गणेश प्रसाद शर्मा (जेसी-239960एक्स), 17 दिसम्बर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पिचन्दी सी (जेसी-239680एल), 01 जनवरी 2006

नायब रिसालदार तपन कुमार घोष (जेसी-240519एच), 01 जनवरी
2006

नायब रिसालदार राम पाल सिंह (जेसी-240193एक्स), 11 मार्च 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बीरेन्द्र कुमार (जेसी-240265डब्ल्यू), 27 फरवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-240306पी), 25 फरवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुनाथ (जेसी-239916पी), 12 अगस्त 2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मुरलीधरन पिल्लै टी (जेसी-240040एन), 05 सितम्बर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुलेमान खलको (जेसी-240226एक्स), 30 दिसम्बर
2005 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पी ओबूला रेड्डी (जेसी-238992एम), 04 जनवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रसन्ना चन्द्र दास (जेसी-239986एन), 02 जनवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार करमवीर सिंह (जेसी-240346डब्ल्यू), 01 मार्च 2006 *

नायब रिसालदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-239426एफ), 02 मार्च
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बचन सिंह (जेसी-239953एच), 01 मार्च 2006 *

नायब रिसालदार आई नजीर राजा (जेसी-239410डब्ल्यू), 09 जनवरी
2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अतीश कुमार दास देव सर्मा (जेसी-239411वाई),
09 जनवरी 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार भोगेश्वर साक्रिया (सं. 1072049एच अब जेसी-241718एच),
04 मई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

दफादार सोहराय हिरेन्ज (सं. 1070627एन अब जेसी-241719एल),
06 मई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

दफादार राज सिंह सेहरावत (सं. 1076441ए अब जेसी-241735एच),
03 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

दफादार प्रहलाद कुमार (सं. 1082316एम अब जेसी-241743एफ),
27 जून 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार महेश चन्द (सं. 1075549एल अब जेसी-241757एफ),
06 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार सुखबीर सिंह (सं. 1074597वाई अब जेसी-241768एन),
07 जून 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार गंगा शय (सं. 1071689ए अब जेसी-241793एम), 03 जुलाई
2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

दफादार सरबदेव राय (सं. 1071541एफ अब जेसी-241802एच),
06 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार जोगिन्दर सिंह (सं. 1078618एफ अब जेसी-241805डब्ल्यू),
05 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार दीपचंद चौहान (सं. 1071983ए अब जेसी-241806वाई),
12 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार शेख मेहबूब पीरा (सं. 1068141के अब जेसी-241807एफ),
30 जून 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार अजय कुमार सिंह (सं. 1072013के अब जेसी-241809एम),
03 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार सत्येन्द्र पाल सिंह (सं. 1076512डब्ल्यू अब जेसी-241810एफ),
01 जुलाई 2006

दफादार पाटली राजाराम आत्माराम (सं. 1072673एफ अब
जेसी-241813पी), 25 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार अकरे खेमून्दा श्रीराम (सं. 1072674के अब
जेसी-241814एक्स), 25 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार कुलभूषण सिंह (सं. 1076379वाई अब जेसी-241816एच),
10 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार प्रकाश चन्द (सं. 1077089एन अब जेसी-241817एल), 06
जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार धुबे अचयत नामदेव (सं. 1075220एफ अब
जेसी-241715पी), 01 जून 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

दफादार पुट्टू लाल (सं. 1072984पी अब जेसी-241733एक्स),
01 जून 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार परमजीत सिंह (सं. 15469277के अब जेसी-241741डब्ल्यू),
06 जून 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 मार्च 2006 से दी जाती है)

दफादार नन्द किशोर प्रसाद (सं. 1071998एच अब
जेसी-241742वाई), 29 मई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार जय सिंह (सं. 1078413एम अब जेसी-241746पी), 13 जून
2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

- दफादार भीम सिंह (सं. 1076653एल अब जेसी-241756वाई),
19 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार रघुबर सिंह (सं. 1078285ए अब जेसी-241766एच),
01 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2006 से दी जाती है)
- दफादार दुर्गेश्वर चेतिया (सं. 1070554एम अब जेसी-241769डब्ल्यू),
12 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार राजीव लोचन पांडे (सं. 1071951एक्स अब जेसी-241770एल), 12 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार प्रहलाद राम मीना (सं. 1072260एक्स अब जेसी-241772डब्ल्यू), 12 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार राम लक्ष्मण सिंह (सं. 1072485ए अब जेसी-241773वाई),
12 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार जबर सिंह उडावत (सं. 1071449एच अब जेसी-241760एफ), 01 जुलाई 2006
- दफादार दलबीर सिंह (सं. 1080876ए अब जेसी-241764एक्स),
24 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)
- दफादार महेन्द्र पाल सिंह (सं. 1081171ए अब जेसी-241765ए),
22 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2006 से दी जाती है)
- दफादार बिजेन्द्र सिंह (सं. 1075316के अब जेसी-241767एल),
28 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार कशमीर सिंह (सं. 1078308डब्ल्यू अब जेसी-241771एम),
07 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार शेख अफसर (सं. 1077222एल अब जेसी-241774एफ),
22 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार करन पाल (सं. 1078651वाई अब जेसी-241775के),
22 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार देवास्से कुट्टी के पी (सं. 1074262एफ अब जेसी-241776एम), 24 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)
- दफादार हिम्मत सिंह (सं. 1071506वाई अब जेसी-241777पी), 03 जुलाई 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)
- दफादार यशवंत पांडुरंग नामदेव (सं. 1075151डब्ल्यू अब जेसी-241779ए), 03 जुलाई 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)
- दफादार माधू सूदान निदूर (सं. 1076715ए अब जेसी-241784एल),
03 जुलाई 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)
- दफादार कप्तान सिंह (सं. 1071493एम अब जेसी-241785एन), 01 जुलाई 2006
- दफादार भागीरथ राम खिल्लेरी (सं. 1072410एच अब जेसी-241786डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006
- दफादार बलबीर सिंह (सं. 1078778एफ अब जेसी-241706एन),
14 जून 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)
- दफादार आजाद सिंह (सं. 1071522डब्ल्यू अब जेसी-241795एक्स),
24 जुलाई 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)
- दफादार नन्द लाल (सं. 1077090एच अब जेसी-241798एल),
02 अगस्त 2006 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2006 से दी जाती है)

दफादार ओमवीर सिंह (सं. 1077685ए अब जेसी-241800एक्स),
29 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार सुरेश चन्द शर्मा (सं. 1071695एन अब जेसी-241804एन),
29 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार सुखदेव सिंह (सं. 1071092एक्स अब जेसी-241808के),
01 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार सतीश कुमार (सं. 1071580ए अब जेसी-241812एम), 03
जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार काना राम (सं. 1076197एल अब जेसी-241820एल), 01
अगस्त 2006 *

दफादार भरत सिंह (सं. 1071329के अब जेसी-241821एन), 01
अगस्त 2006 *

दफादार पान सिंह (सं. 1075425डब्ल्यू अब जेसी-241824एफ), 01
अगस्त 2006 *

दफादार श्री राम (सं. 1071587के अब जेसी-241825के), 01 अगस्त
2006

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1072018एच अब जेसी-241826एम), 01
अगस्त 2006

दफादार सोहन सिंह (सं. 1072171वाई अब जेसी-241827पी), 01
अगस्त 2006

दफादार गुरचरण सिंह (सं. 1072279डब्ल्यू अब जेसी-241828एक्स),
01 अगस्त 2006

दफादार उदय भान (सं. 1075632एच अब जेसी-241830पी),
01 अगस्त 2006

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1079009के अब जेसी-241831एक्स),
01 अगस्त 2006

दफादार जवानजल विनायक भाऊराऊ (सं. 1075230एल अब
जेसी-241783एच), 01 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार परमेल सिंह दत्तवालिया (सं. 1069109एफ अब
जेसी-241794पी), 11 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मार्च 2006 से दी जाती है)

दफादार भीनया राम भिनचर (सं. 1076094एम अब जेसी-241796ए),
02 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

दफादार राम चन्दर (सं. 1068142एम अब जेसी-241801ए),
05 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार विध्यासागर (सं. 1071966ए अब जेसी-241803एल),
28 जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार जी जायावेल (सं. 1074645एन अब जेसी-241811के), 31
जुलाई 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार चुन्नी लाल (सं. 1076467पी अब जेसी-241819डब्ल्यू),
03 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार हवा सिंह (सं. 1071108एक्स अब जेसी-241822डब्ल्यू), 08
अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार बिजेन्द्र सिंह (सं. 1073351एन अब जेसी-241823वाई), 08
अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार थॉमस के जे (सं. 1075438एन अब जेसी-241829ए), 12
अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार रवि शंकर शाही (सं. 1072545के अब जेसी-241832ए),
17 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार राम लखन सिंह (सं. 1078402ए अब जेसी-241834एस),
07 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार कश्मीर सिंह (सं. 1074794एफ अब जेसी-241836डब्ल्यू),
07 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार जगत सिंह (सं. 1072313एल अब जेसी-241837वाई),
03 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 जून 2006 से दी जाती है)

दफादार शमशार सिंह (सं. 1076697एच अब जेसी-241841एफ),
17 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 जुलाई 2006 से दी जाती है)

दफादार सेवा सिंह (सं. 1076690वाई अब जेसी-241844पी), 17
अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार देवराज (सं. 1074831के अब जेसी-241846ए), 12 अगस्त
2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार ख्याल सिंह (सं. 1072986ए अब जेसी-241849एन),
17 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार माला रेड्डी एस श्रीनिवासू (सं. 1073182एक्स अब
जेसी-241850एच), 17 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार मोहम्मद अहीनुल हक्क (सं. 1071886एच अब
जेसी-241851एल), 03 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार जगदीश चन्दर (सं. 1071484एल अब जेसी-241852एन),
15 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार लखी बरुआ (सं. 1072052एच अब जेसी-241853डब्ल्यू),
10 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार राम बरन विश्वकरमा (सं. 1072373ए अब
जेसी-241854वाई), 17 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार जगफूल सिंह (सं. 1078440डब्ल्यू अब जेसी-241855एफ),
14 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

दफादार पुनियदेव राय (सं. 1072728ए अब जेसी-241856के),
17 अगस्त 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 07, दिनांक 01 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :-

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार मेजर (हेल्थ असिस्टेंट)

सूबेदार के भास्कर (जेसी-690544एल), 01 जून 2005

सूबेदार ब्रम्हा राम शर्मा (जेसी-690894एक्स), 01 मार्च 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (फार्मासिस्ट)

सूबेदार भरत सिंह (जेसी-690984वाई), 01 अगस्त 2005

सूबेदार काशी प्रसाद के (जेसी-690703एक्स), 01 अक्टूबर 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (ओपरेशन रूम असिस्टेंट)

सूबेदार बबन राय (जेसी-691140पी), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार नारायणन के (जेसी-691254ए), 01 फरवरी 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (स्पेशल ट्रीटमेंट असिस्टेंट)

सूबेदार सत्यनारायण घोष (जेसी-692194एल), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (लैबोरेटरी असिस्टेंट)

सूबेदार शक्ति पांडा गोस्वामी (जेसी-692238पी), 01 दिसम्बर 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (साइक्रेटिक नर्सिंग असिस्टेंट)

सूबेदार कृष्णा पांडा राय (जेसी-692600एक्स), 01 फरवरी 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (रेडियोग्राफर)

सूबेदार विश्वनाथन वायाकथ माताथिल (जेसी-216970ए), 01 अप्रैल
2006

सूबेदार जबार सिंह इंद्रा (जेसी-697327वाई), 01 मई 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (ऑपरेशन रूम असिस्टेंट)

नायब सूबेदार राधेश्याम (जेसी-693968एम), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-693929एन), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार ओंकार चन्द राना (जेसी-693931एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार बिक्राम सिंह कंवर (जेसी-693930एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार वेंकटेशन एम (जेसी-693969पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार पलास राम (जेसी-693972पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी-693973एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्रनाथ सेठी (जेसी-693974ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्रन यू (जेसी-694048एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार रामहित (जेसी-693970के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार कमल सिंह दसीला (जेसी-694103एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार हरी मोहन (जेसी-694079एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार गवाली सुरेश दन्याराज (जेसी-694080डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार निल मनी सिन्हा राजकुमार (जेसी-694082एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सिवास चन्द्र नायक (जेसी-694133के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रघुनाथ नायक (जेसी-694104पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुरेश प्रसाद (जेसी-694153एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सुरेश कुमार पी (जेसी-694190एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार खजूर सिंह (जेसी-694195के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार अमर नाथ पाण्डेय (जेसी-694210एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-694289एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सतय रंतन विश्वास (जेसी-694290डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार मनमोहन नायर एम आर (जेसी-694294एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार गणेश्वर स्वामी (जेसी-694367एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार पदमनाभन धीयांचेरी वीटू (जेसी-694358एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार अनंता कालिता (जेसी-694359पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्रन यू (जेसी-694209वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार फूल सिंह यादव (जेसी-694414ए), 01 जून 2006

स्थायी सूबेदार (स्पेशल ट्रीटमेंट असिस्टेंट)

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार सिन्हा (जेसी-694363एक्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र शर्मा (जेसी-694362पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-694299एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-694372वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार विश्वनाथन वी (जेसी-694445ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मु. अकबर शेख (जेसी-694151एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मन्हेव गानी शशीकान्त नरहर (जेसी-694546एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार महाजन ताराचन्द गंगाधर (जेसी-694677वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार तुलसी राम बहुगुणा (जेसी-694676डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार दिलीप कुमार साहू (जेसी-694802एक्स), 01 जून 2006

नायब सूबेदार मु. अब्दुल करीम (जेसी-694830एम), 01 जून 2006

नायब सूबेदार वीरेन्द्र कुमार (जेसी-694827के), 01 जून 2006

स्थायी सूबेदार (लेबोरेटरी असिस्टेंट)

नायब सूबेदार कैलाश सिंह (जेसी-694197पी), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार एस चिन्नन (जेसी-694207एन), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-694213एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार निकम धोन्डिबा हरिबा (जेसी-694224एन), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार चन्द्रपाल सिंह (जेसी-694226वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार नरायनन सम्पा (जेसी-694284एच), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार बलराम पाण्डेय (जेसी-694297एफ), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार गजिन्दर कुमार (जेसी-694298के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार डूंगर राम सूथर (जेसी-694350ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार अन्थ बन्धू गुप्ता (जेसी-694351एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-694286एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार भुवनेश्वर प्रसाद (जेसी-694352एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रामजी शर्मा (जेसी-694353एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र नाथ राय (जेसी-694429एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन पिल्लई बी (जेसी-694354डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-694430के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार नर्मिहारव तन्नेरू (जेसी-694655ए), 01 जून 2006

नायब सूबेदार ब्रजरंगी सिंह (जेसी-694188एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-694285एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सत्येन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-694427एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-694366एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार ब्रिजेन्द्र कुमार पाण्डेय (जेसी-694547डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रुद्रप्पा करीमल्लानवर (जेसी-694548वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार शुक्ला (जेसी-694654एक्स), 01 जून 2006

स्थायी सूबेदार (फार्मासिस्ट)

नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जेसी-692936एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार दयोनन्द (जेसी-692666एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार करमबीर सिंह (जेसी-692666एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार रवीन्द्र सेठी बी (जेसी-692667डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-692668वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जेसी-692669एफ), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-692670डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राधा कृष्णन एन (जेसी-692971ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जितेन्द्र राय (जेसी-693002एम), 01 मई 2006

नायब सूबेदार के गोपा कुमार (जेसी-693027वाई), 01 जुलाई 2006

स्थायी सूबेदार (सांकेतिक नर्सिंग असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार जालामल्लि सी (जेसी-693860पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जयन्त कुमार नायक (जेसी-693861एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार शशीधरन पिल्लई (जेसी-694044एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार अजीत कुमार तालुकदार (जेसी-694441के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार गणेश चन्द्र नन्दी (जेसी-694442पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार दिलीप चन्द्र दास (जेसी-694443पी), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-694542एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-694673एन), 01 जून 2006

स्थायी सूबेदार (रेडियोग्राफर)

नायब सूबेदार बाल कृष्णा ए (जेसी-692556वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार एम नटराजन (जेसी-692557एफ), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार साहब सिंह (जेसी-692559एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार बिनोद कुमार श्रीवास्तव (जेसी-692679एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार शंकुरु बालाचिन्नैया (जेसी-692681एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार घन्चलया चियर भाई भवानी शंकर (जेसी-692615ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-692616एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जय किशन जोसी (जेसी-692684वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार देबाज्योति दत्ता चौधरी (जेसी-692686एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार बालाकृष्णन के (जेसी-692683एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-692685डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

स्थायी सूबेदार (एक्सरे)

नायब सूबेदार चन्द्र नायक पाटिल (जेसी-692680ए), 01 जनवरी 2006

स्थायी सूबेदार (डेंटल हाईजिनिस्ट)

नायब सूबेदार मन्सा राम (जेसी-694229एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जनार्धन टी के (जेसी-694291वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार परषोत्तम सिंह (जेसी-694446एच), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सुन्दरेशन पी एल (जेसी-694447एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार पूरन सिंह साही (जेसी-694448एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजेन्द्र बाबू ओझा (जेसी-694449डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार जॉसन के एम (जेसी-694450एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सामुअल वी ए (जेसी-694371डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-694532एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार हनमन्त जाधव (जेसी-694661एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार वेद व्यास (जेसी-694662डब्ल्यू), 01 जून 2006

स्थायी सूबेदार (डेन्टल तकनीशियन)

नायब सूबेदार थोमस पी जे (जेसी-692529पी), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार यद राम (जेसी-692530के), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार शीस राम बुदानीय (जेसी-692531एम), 01 जुलाई 2006

स्थायी सूबेदार (डेन्टल रूम ऑपरेशन असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार अपूर्वाव कुमार घोष (जेसी-693539एल), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार शुभ नारायण गुप्ता (जेसी-694036एम), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार बिनोय कुमार बिश्वास (जेसी-693975एच), 01 मई 2006
 नायब सूबेदार अम्बिका नन्दन रावत (जेसी-694075एल), 01 मई 2006

स्थायी सूबेदार (ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र बरीक (जेसी-694440एफ), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार किस्टोफर लकरा (जेसी-694556एक्स), 01 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-694552एफ), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार पुलीकेशी पाटिल (जेसी-694550डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2005
 नायब सूबेदार वीरा कुमार सी (जेसी-694438के), 06 दिसम्बर 2005
 नायब सूबेदार शेकरा शेटी (जेसी-694557ए), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार अशोक कुमार झा (जेसी-694653पी), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिंह नेगी (जेसी-694850एक्स), 01 जून 2006
 नायब सूबेदार भोला नाथ दुबे (जेसी-694961पी), 01 जुलाई 2006

स्थायी सूबेदार (फिजियोथेरोपी ट्रीटमेंट असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार लीला दत्त (जेसी-694046डब्ल्यू), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार हरी शंकर सिंह (जेसी-694098एम), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार गार्डे रामचन्द्र शंकर (जेसी-694047वाई), 01 अप्रैल 2006
 नायब सूबेदार डोरांगरी मुरलीधर नायडू (जेसी-694083के), 01 अप्रैल 2006

स्थायी सूबेदार (हेल्थ असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-692195एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लाल मोहन पाटिल (जेसी-691840एम), 16 मार्च 2006
 नायब सूबेदार शीश मनी शुक्ला (जेसी-692196डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग असिस्टेन्ट)

सूबेदार स्वपन कुमार बिश्वास (जेसी-692339एन), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (नर्सिंग तकनीशियन)

सूबेदार श्रीकान्त शर्मा (जेसी-214873ए), 01 दिसम्बर 2005
 सूबेदार सुखेन्द्र कुमार करमाकर (जेसी-214974एच), 01 फरवरी 2006

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेन्ट)

नायब सूबेदार राजकुमार (जेसी-694013एल), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार कामेश्वर सिंह (जेसी-694017एफ), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-694062एन), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-694072एक्स), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार ओंकार दत्त (जेसी-694121पी), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार यागया नारायण ओझा (जेसी-694122एक्स), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार राजीव रंजन कुमार झा (जेसी-694124एच), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार भान सिंह (जेसी-694174एन), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार मन मोहन सिंह (जेसी-694126एन), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार अशोक कुमार त्यागी (जेसी-694129एफ), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार मेहरमान सिंह वर्मा (जेसी-694176वाई), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार धरमबीर सिंह बुधनियां (जेसी-694131वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार विमल कुमार नायर बी (जेसी-694246एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सोहन पाल (जेसी-694177एफ), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार अच्युत कुमार घोष (जेसी-694148के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-694179एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार कदम बाजीराव कंडलिका (जेसी-694308एफ), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार श्री किशन (जेसी-694333ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार वेद प्रकाश समरीवाल (जेसी-694513एच), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राजकुमार शर्मा (जेसी-694514एल), 01 अप्रैल 2006

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग तकनीशियन)

नायब सूबेदार कन्हैया लाल कुशवाहा (जेसी-692338एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार गौतम जाना (जेसी-694239डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

आर. सी. रातूडी
अवर सचिव

सं. 08, दिनांक 04 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार हरी कुमार पाण्डेय (सं. 7114756एफ अब जेसी-841830एम), 05 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)

हवलदार श्री वीरा रायन राजा (सं. 2568325एफ अब जेसी-841909पी), 19 जनवरी 2006**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार गिरवर सिंह (सं. 2962829एम अब जेसी-841933एल), 06 जनवरी 2006***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005)

हवलदार परशोतम सिंह (सं. 10361061के अब जेसी-841946एच), 23 दिसम्बर 2005****

हवलदार रुलदा सिंह (सं. 1452081के अब जेसी-841951एन), 16 जनवरी 2006****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2671655ए अब जेसी-841954एफ), 10 मार्च 2006*****

हवलदार मोहम्मद रशीद (सं. 10165181डब्ल्यू अब जेसी-841955के), 07 मार्च 2006*****

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 7768646एक्स अब जेसी-841956एम), 23 जनवरी 2006*****

हवलदार इन्दर सिंह पठानिया (सं. 3974405वाई अब जेसी-841957पी), 18 फरवरी 2006*****

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2966075ए अब जेसी-841958एक्स), 15 फरवरी 2006*****

हवलदार काबल सिंह (सं. 2463172के अब जेसी-841960पी), 30 जनवरी 2006*****

हवलदार कृष्णा कुमार पाण्डेय (सं. 10180778डब्ल्यू अब जेसी-841961एक्स), 12 जनवरी 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006)

हवलदार थोमस एम डी (सं. 10290198के अब जेसी-841969के), 01 फरवरी 2006*****

हवलदार बेबी जॉर्ज (सं. 14219833वाई अब जेसी-841970वाई), 03 फरवरी 2006*****

हवलदार युधवीर सिंह (सं. 3968153एफ अब जेसी-841974पी), 01 फरवरी 2006*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)

हवलदार लिपिक एस धनराज (सं. 10451598के अब जेसी-841967वाई), 15 फरवरी 2006*****

हवलदार लिपिक ए चन्द्रन (सं. 10451463एच अब जेसी-841968एफ), 28 फरवरी 2006*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006)

हवलदार लिपिक बलवान सिंह (सं. 14333600एक्स अब जेसी-842002एन), 10 मार्च 2006*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

टी. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ईएमई कार्मिक

सं. 09, दिनांक 04 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार जोसे के थोमस (जेसी-756571एक्स), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

नायब सूबेदार जोयदेव कुन्दु (जेसी-756823वाई), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

नायब सूबेदार हलाधर मण्डल (जेसी-756637एच), 15 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

नायब सूबेदार हरि ओम शर्मा (जेसी-756402एन), 08 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

नायब सूबेदार बी फ्रान्सिस एम्सवियर ईसय्या (जेसी-756578एफ), 30 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार के भरती (जेसी-756573एच), 07 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार श्री राम शिरोमनी पान्डे (जेसी-756460ए), 01 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार कुशवाहा (जेसी-756481डब्ल्यू), 03 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार वानखेडे कुन्डालिक किशना राव (जेसी-756411एक्स), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार भनवर लाल (जेसी-756470के), 02 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार सुब्बाराव कुल्लूरी (जेसी-756451वाई), 19 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार रविन्द्रा प्रसाद (जेसी-756466एफ), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह मलिक (जेसी-756798एल), 01 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-756388पी), 08 मई 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अन्नाराज राय (जेसी-756679पी), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार राम बिलास तिवारी (जेसी-756409ए), 02 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार मनोरन्जन राय (जेसी-756469पी), 02 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार वी चेल्ला मनी (जेसी-756467के), 12 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार शिव कुमार कुशवाहा (जेसी-756389एक्स), 05 जून 2006/12 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार जाखू राम यादव (जेसी-756487एक्स), 29 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार जार्ज के एम (जेसी-756561एन), 30 मई 2006/01 मई 2006 *

नायब सूबेदार रत्नेश्वर लाल करन (जेसी-756686एल), 03 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-756479वाई), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-756562डब्ल्यू), 05 जून 2006/01 मई 2006 *

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-756408एक्स), 05 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार देवेन्द्रप्पा एम (जेसी-756493एल), 03 जून 2006/01 मई 2006 *

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-756400एल), 12 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार ड्राइवर के रैंक में

नायब सूबेदार सिंह राज (जेसी-758558एम), 27 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-757349एच), 08 मई 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र पाठक (जेसी-757312एफ), 12 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार जै नाथ प्रसाद सिंह (जेसी-757318एच), 22 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

सूबेदार आरटीजन ईसी (एविएसन) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रमोद सिंह राठौर (जेसी-756833एच), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राजेश कुमार पान्डेय (जेसी-756518एम), 05 जून 2006/01 मई 2006 *

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार अनूप सिंह यादव (जेसी-754415पी), 01 जून 2006/01 मई 2006 *

नायब सूबेदार संजय कुमार (जेसी-754419एल), 08 जून 2006/01 मई 2006 *

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार प्रधुमन सिंह (जेसी-754313वाई), 13 जून 2006/01 मई 2006 *

सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार परषोतम सिंह (जेसी-758230एल), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार भगवान दास (जेसी-758088एम), 13 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-757271एच), 30 जनवरी 2006/01 जून 2006 *

नायब सूबेदार नुर मोहम्मद एस के (जेसी-757955वाई), 30 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार उमराव सिंह (जेसी-757953एन), 04 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार दिलीप कुमार सिंह (जेसी-758056के), 30 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार तापन कुमार मोहन्ति (जेसी-758128एच), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार मुन्ना लाल भट (जेसी-756053एक्स), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार राम करन (जेसी-756052पी), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार विद्यान्तर मन्डल (जेसी-756050के), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-756049पी), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार विजय कुमार साह (जेसी-756272वाई), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रामन चेट्टियार के एस (जेसी-756271डब्ल्यू), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार सुभाष चन्दर पाण्डे (जेसी-756043एन), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जेसी-756047के), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रघु नाथ सिंह (जेसी-755884के), 03 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार टेक बहादुर शर्मा (जेसी-755978एफ), 04 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राम औतार प्रसाद (जेसी-755981एफ), 19 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार अजय घोश पी (जेसी-755996के), 12 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार एम चेनाल राया रेड्डी (जेसी-756153एच), 06 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह कुशवाहा (जेसी-756156एल), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार देश राम जाट (जेसी-755693पी), 11 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005 *

नायब सूबेदार कैलाश सिंह कुशवाहा (जेसी-755852एफ), 14 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार कमान सिंह (जेसी-755853के), 30 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार गुरुबचन सिंह (जेसी-755855पी), 18 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार उदय कुमार आर (जेसी-7556097पी), 08 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार आर सेल्वराज (जेसी-756008एल), 04 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार हबिबुर रहमान (जेसी-756000वाई), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार जस्पाल सिंह (जेसी-756001एफ), 27 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-756012एन), 17 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार नरोत्तम कुमार (जेसी-756015एफ), 26 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार माथ्यु वी वी (जेसी-756018पी), 15 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार क्रिशन पाल (जेसी-756019एक्स), 15 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार मुनीश कुमार (जेसी-755946वाई), 27 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार उपेन्द्र कुमार (जेसी-755950एफ), 24 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह राना (जेसी-756208एफ), 30 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार सारिनाद्र कुमार (जेसी-756393ए), 30 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्रन पिल्लै के (जेसी-755953पी), 27 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार उदय चन्द्र मिश्रा (जेसी-756140एल), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार हरीश चन्दरा सिंह (जेसी-756096एम), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा (जेसी-756014पी), 01 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार विजय कुमार झा (जेसी-753117एम), 27 जनवरी 2006/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-756313एक्स), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

सूबेदार आरटीजन (एच ई एन) के रैंक में

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-756894एस), 06 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार रिकवरी मैक. के रैंक में

नायब सूबेदार के एच जौयनल हक (जेसी-752616पी), 28 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार विनोद कुमार उपाध्याय (जेसी-751244एच), 16 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006*

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह गुर्जर (जेसी-756082एम), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार नन्दलाल महतो (जेसी-756717ए), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-756130एफ), 31 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2006*

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-756766एम), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार एम पप्पा चन (जेसी-756960एक्स), 30 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार खाजुरे शिव दर्शन एन (जेसी-757094एन), 05 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार जुगल किशोर सोनी (जेसी-757095डब्ल्यू), 13 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार काशी नाथ (जेसी-757157एल), 28 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार करम चन्द (जेसी-757315पी), 01 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार गन्नाधर (जेसी-757316एक्स), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-757046एन), 31 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार गोपाल मिश्रा (जेसी-756131के), 10 जनवरी 2006/01 सितम्बर 2005*

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार मोहम्मद मुजाफर शाह (जेसी-754206एक्स), 02 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार एम पौल राज (जेसी-754209एल), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार किरन शंकर राय (जेसी-754207ए), 06 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार विनोद कुमार शर्मा (जेसी-754284पी), 06 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार उग्रसेन सिंह (जेसी-754285एक्स), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार जयप्रकाश एन (जेसी-757827एफ), 28 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार सन्करन कुट्टी नायर सी (जेसी-757948एच), 29 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार ठाकुर सिंह (जेसी-757999डब्ल्यू), 25 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार मालिन चन्द्र बल (जेसी-757981ए), 30 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार बुधराज सिंह (जेसी-758001ए), 16 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार राम बचन सिंह (जेसी-758003एल), 24 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-758154के), 10 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार गोपाल दास (जेसी-758158ए), 27 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-758159एच), 15 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रसाद विस्वास (जेसी-758166वाई), 27 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार बच्चा राय (जेसी-758167एफ), 11 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार सर्वन कुमार (जेसी-758168के), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-758169एम), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार अतिन कुमार घोष (जेसी-758371ए), 04 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-758419एच), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-758865के), 10 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार माधेश्वर सिंह (जेसी-758751वाई), 14 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

सूबेदार टेक्नीकल ए वी एन के रैंक में

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-756503के), 25 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006*

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार मुरारी कुमार (जेसी-755961एन), 02 मई 2006/
16 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार भूप नारायण ठाकुर (जेसी-757218एक्स), 27 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश (जेसी-754312डब्ल्यू), 02 मई 2006/01 मार्च
2006 *

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार छोटे लाल यादवा (जेसी-754005वाई), 17 अप्रैल
2006/16 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार कमलेश राय (जेसी-754328एफ), 01 मई 2006/
01 मई 2006 *

सूबेदार आर्टिजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार सतेन्द्र नारायण सिंह (जेसी-757053के), 06 मई 2006/06
दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-758245एन), 08 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार दुरै स्वामी (जेसी-758291एच), 06 मई 2006/01 मार्च
2006 *

नायब सूबेदार सुशील कुमार शुक्ला (जेसी-758294डब्ल्यू), 03 मई
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार देवेश चन्द्र शर्मा (जेसी-757165के), 01 मई 2006/
06 दिसम्बर 2005 *

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार राम चन्द्र पान्डे (जेसी-758170एफ), 13 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-758422एच), 05 मई 2006/01 मार्च
2006 *

नायब सूबेदार संतोश कुमार तिवारी (जेसी-758421ए), 09 मई
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार शिव राम सिंह (जेसी-758431के), 21 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार हंस बहादुर सिंह (जेसी-758430एफ), 22 मई 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-758420एक्स), 24 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार कृष्णा गोपाल (जेसी-756006ए), 21 नवम्बर 2005/
01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार एस किशोर कुमार साहेब (जेसी-755258ए), 13 अप्रैल
2006/06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार गोपाल सिंह चौहान (जेसी-756158एफ), 24 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह धाकारे (जेसी-756159के), 15 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार शम्भु लाल पुरी (जेसी-756237डब्ल्यू), 18 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ए कुमार विश्वकर्मा (जेसी-756183ए), 12 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार केवल किशोर (जेसी-756281ए), 10 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-756250ए), 15 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार प्रेमा कुमार परुचैरी (जेसी-756372के), 17 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार लक्ष्मी दत्त (जेसी-756616एम), 18 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राम बाबु (जेसी-756439एक्स), 27 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राजबीर शर्मा (जेसी-756629के), 18 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार टी एन भवथवत्सलम (जेसी-756634पी), 24 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार बलबीर यादव (जेसी-756675वाई), 29 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अनूप कुमार घोष (जेसी-756746पी), 19 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार नवीन कुमार (जेसी-756624एल), 19 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सोनपाल सिंह (जेसी-757369डब्ल्यू), 25 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अखिलेश पांडे (जेसी-758245पी), 12 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ए बाला राजा (जेसी-756448वाई), 12 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार उग्रैटी (जेसी-753856वाई), 20 अप्रैल
2006/07 सितम्बर 2005 *

नायब सूबेदार शीबु बी एस (जेसी-756139डब्ल्यू), 09 मार्च 2006/
01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-756162के), 19 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रामजीत प्रसाद (जेसी-756168एल), 12 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार भूरे शिवराज (जेसी-755886पी), 01 मई 2006/
06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार परमा नन्दा हजरा (जेसी-756284एन), 18 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सूर्या नारायण साहु (जेसी-756285डब्ल्यू), 25 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार जयन्ता कुमार कुन्दु (जेसी-756462एल), 25 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-756142डब्ल्यू), 15 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राम चन्द्रा (जेसी-756143वाई), 12 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार शैलेश कुमार (जेसी-756146एम), 09 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-756185एल), 12 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार आर अन्बुराज (जेसी-756280एक्स), 26 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-756287एफ), 02 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सराब देव सिंह यादव (जेसी-756296एच), 17 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रेवत राम (जेसी-756246एक्स), 08 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार आनन्दपाल सिंह चौहान (जेसी-756368एफ), 15 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार एम थन्नावेल (जेसी-756375एक्स), 17 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सुरत सिंह (जेसी-756438पी), 06 मई 2006/01 मार्च
2006 *

नायब सूबेदार ललन प्रसाद यादव (जेसी-756373एम), 09 मई
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार बासुदेव प्रसाद राय (जेसी-756622ए), 13 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सुकुल प्रसाद साहा (जेसी-756446एन), 24 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अरुण कुमार महाराज (जेसी-756627वाई), 22 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सुम्पुरन सिंह (जेसी-756374पी), 17 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रविवरन कुमार गर जी (जेसी-756397डब्ल्यू),
28 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सैलेन रे (जेसी-754062ए), 15 अप्रैल 2006/06 दिसम्बर
2005 *

नायब सूबेदार देसाई रघुनाथ शिवाजी (जेसी-755506एल), 27 मार्च
2006/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार विजय प्रकाश तिवारी (जेसी-756625एन), 19 मई
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ऐदान राम (जेसी-756618एक्स), 01 मई 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार आर्टीजन (ए वी एन) के रैंक में

नायब सूबेदार सवाई सिंह (जेसी-756003डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2006/
24 जुलाई 2005 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह जाडोन (जेसी-756048एम), 18 मार्च
2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार विनोद सिंह रावत (जेसी-756161एफ), 17 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार एम डी जिब्रैल (जेसी-756276पी), 27 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश नेहरा (जेसी-756378एल), 29 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार असिम चक्रवर्ती (जेसी-756396एन), 18 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार पी जगदीश (जेसी-756399एफ), 26 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार प्रकाशन ई आर (जेसी-756403वाई), 02 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-756491ए), 02 जून 2006/01 मई
2006 *

नायब सूबेदार प्रभात सिंह (जेसी-756680एक्स), 01 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार ब्रिज राज (जेसी-756819डब्ल्यू), 02 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार साहि राम यादव (जेसी-757408के), 05 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार ओमबीर सिंह (जेसी-756683एक्स), 05 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार राम कन्वर मलिक (जेसी-756412ए), 07 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार धान सिंह (जेसी-756475एच), 03 जून 2006/01 अप्रैल
2006 *

नायब सूबेदार पाटिल समाधान हरी (जेसी-756670ए), 02 जून
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार पूर्णानन्द पांडे (जेसी-756478डब्ल्यू), 01 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार रति राम (जेसी-756461एच), 07 जून 2006/01 अप्रैल
2006 *

नायब सूबेदार पन्ना लाल (जेसी-756514डब्ल्यू), 02 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-756671एच), 02 जून
2006/01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार के बसी रेड्डी (जेसी-756484के), 05 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

नायब सूबेदार जनक सिंह (जेसी-756560एल), 05 जून 2006/
01 मई 2006 *

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जेसी-756495डब्ल्यू), 07 जून 2006/
01 मई 2006 *

नायब सूबेदार बाबु लाल (जेसी-756483एफ), 08 जून 2006/
01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार मन्त प्रसाद (जेसी-757333एक्स), 22 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

सूबेदार आर्टीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार बिशन पाल सिंह (जेसी-756770एल), 05 जून 2006/
01 मई 2006 *

सूबेदार आर्टीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार कोचुमनि पी पी (जेसी-758393वाई), 06 जून 2006/
01 मई 2006 *

नायब सूबेदार भगत सिंह बिष्ट (जेसी-757552वाई), 01 मई 2006/
06 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार बलराम सिंह (जेसी-758323ए), 07 जून 2006/01 मई
2006 *

नायब सूबेदार राम नाथ सिंह (जेसी-758480एम), 06 जून 2006/
01 मई 2006 *

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-756776एम), 27 अप्रैल 2006/
06 दिसम्बर 2005 *

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-754286ए), 20 अप्रैल 2006/
01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार नाहर सिंह (जेसी-754329के), 06 जून 2006/01 मई
2006 *

नायब सूबेदार मन्ना लाल वर्मा (जेसी-754417ए), 03 जून 2006/
01 मई 2006 *

सूबेदार टेक्नीकल ए वी एन के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-756519पी), 06 जून 2006/
01 मई 2006 *

सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार दिनेश दत्ता ओझा (जेसी-752255एफ), 06 जून
2006/01 मई 2006 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 10, दिनांक 07 दिसम्बर 2006---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ए एम
सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि. कमांडर के पद पर

कुनाल तिवारी (एमआर-07476पी) (75722), एएमसी--13 जुलाई
2005

शिल्पा अस्थना (एमआर-08121डब्ल्यू) (75787), एएमसी--21
जनवरी 2006

सरुजना डी (एमआर-7536वाई) (75914एफ), एएमसी--05 फरवरी
2006

सौरभ सी बोवडे (एमआर-08110के) (75997आर), एएमसी--18
फरवरी 2006

रंजन सरकार (एमआर-08120एन) (75801), एएमसी--06 मार्च
2006

ए आनन्द (एमआर-0762पी) (75720), एएमसी--13 जुलाई 2005

समीर तनेजा (एमआर-07468डब्ल्यू) (75721), एएमसी--13 जुलाई
2005

रितु मेहता (एमआर-07478ए) (एफ-26045), एएमसी--13 जुलाई
2005

वाइकिंग भानू (एमआर-08117एन) (75792), एएमसी--21 जुलाई
2005

मार्क पर्टिन (एमआर-08116एल) (एमएस-14140), एएमसी--10
अगस्त 2005

राजेश कामरन
ब्रिगे.
सहा. डीजीएफएमएस (प्रशा.)

सं. 11, दिनांक 07 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की
सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमि सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
वैयक्तिक नं., नाम, आर्म एवं मूल रैंक की तिथि

आईसी-39508 रजत जयरथ एएडी, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-39950 एस सी वर्मा आर्टी, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-39965 बी. मुखर्जी इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-39978 जगदीप सिंह मान इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-40022 ए के भट्ट इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-40091 एम डी सिंह गार्ड्स, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-40180 पी कुमार इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

आईसी-40186 टी के सचदेव आर्टी, 01 अक्टूबर 2005

अजय गोयल
उप निदेशक
एमएस-8ए

सं. 12, दिनांक 01 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों
की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रोदेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर टी के कौशिक (टीए-42195), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर सी के रॉय (टीए-42235), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर पी ए पंडित रॉय (टीए-41912), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर पी सम्पथ (टीए-42008), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर एम के मेहरा (टीए-42275), इन्फैन्ट्री--06 अक्टूबर 2005

मेजर एस के डोगरा (टीए-41936), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर एच आर एस राना (टीए-42385), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर जे एस अहलावत (टीए-42155), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर विजय कुमार बी (टीए-42476), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर राकेश कुमार ब्रा (टीए-42192), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर आर के डोगरा (टीए-42032), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर वी वी दिनेशन (टीए-42039), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर अशवनी कुमार (टीए-42012), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर जे एस आनन्द (टीए-42234), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर हरी सिंह (टीए-42101), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

मेजर एस के पाट्टी (टीए-42151), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

एन. कालियापन
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 13, दिनांक 06 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक
01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

नाम	प्रयोगशला स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती)				
वी. एस. रोकाडे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
एम बी गायकवाड़	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
वी बी पोल	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
बी पी बाडवे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
आर विजयापार्थीयन	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एन डी खोट	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--

1	2	3	4	5
श्री/श्रीमती)				
आर एस बिराजदर	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
वी एम आटे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
ए एन भाटे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एस पी तारे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
वी वी गंगोटे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एच वी खतावकर	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एम वी सूर्यवंशी	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
पी बी पांडया	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एन एम चक्रदेव	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
वी ई यादव	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
आर डी कदम	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
के बी बोरसे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
के एस फिरगे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
जी बी मेधे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
ए सोभा	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
आर जी नंदनवार	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
ए एम मोरगोवकर	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एस आर संगवार	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
जे. ए. कानेतकर	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एन एस मांडलिक	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
ए डी शिरगिरे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एम एस नायडू	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
टी के इकबोटे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
के कुमारधसन	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
जे एस काले	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
वी एस जगतप	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एन जी टाटे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एम एस धेंगडी	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एस एन खांडडे	एआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
ए ए डी दुराई राज	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
एस पशुपति	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
वी कृष्णामूर्ति	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
पी जवाहरलाल	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--

1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती)				
सी संतामूर्ति	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
एस वाई वेंकटरमण	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
टी एस गजेंद्रन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
के प्रभाकर राय	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
डी डी ए मनी	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
जी आनंदन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एस मुणियम	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
आर कोथंडा रमण	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
डीएम सेखर	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
एस आर राधाकृष्णन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
आर विनोबा कृष्णन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
ए एम स्वामीनाथन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एसकंदवेलू	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एम मरुगन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एन वी नंदकुमार	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
जे के राजेन्द्र	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
राजेस्वरी वेम्बू	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एल गौधमन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
जी उमापैथी	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
जे शंकरन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एस इतिराज	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एन गनेसन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एम कलादेवी	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एस बालासुब्रमण्यन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
के वी ओन्नमल सेल्वन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
के विश्वनाथन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
के सुन्दरम	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
के राजन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
बी मोहन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
के कोथंडन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
पी नरसिम्हा	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एम राजेन्द्रन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
एस विनयागम	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती)				
एन बासकरन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
एस तिरुगनानसंबंदन	सीवीआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को टीए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' और टीए 'सी' से तकनीकी अधिकारी के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :---

नाम	प्रयोगशला स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5
एच एन तुलसीमल	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
ए आर नागराजन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
सी विकटर इरुदयाराज	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
सी पुनैयन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
पी राजमोहन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
पी वरदान	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
बी एस एम सिमाद्री	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
डी मनोहरन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
के पेरूमल	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस मोहन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
जी नटराजन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
के वी मुकुंदन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
सरोज नागराजन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
पी थंगाराजू	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
के चंद्रण	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस कृष्णा कुमार	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एम गनासेहरण	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस मुरुगेसन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
वी सेखर	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस गिरिधरन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
पी पी ईश्वरन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
ई राजवेल	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
आर दक्षणामूर्ति	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
जी विजयराम	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एम वीराधवन	सीवीआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस आर खराटे	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस एस देशपांडे	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
बाई बी साल्कर	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
डी वी तांडले	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस आर भिंगरे	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
एस के वर्मा	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

1	2	3	4	5
(श्री/श्रीमती)				
आर एन पाटकी	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
डी आर जाधव	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
आर के काटकर	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
यू जे भोसले	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
ई एम जाधव	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
जे एस सेबल	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
बाई एफ शिंदे	एआरडीई	एसटीए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

बी. बी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन)

सं. 14, दिनांक 06 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

ऐक्टिंग ब्रिगेडियर से स्थायी ब्रिगेडियर

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

एमआर-3539 ब्रिगेडियर जे के बंसल वी एस एम, एएमसी--01 जुलाई 2003

एमआर-03672 ब्रिगेडियर आर पी त्रिपाठी, एएमसी रियर्ड--01 सितम्बर 2003

एमआर-4480 ब्रिगेडियर आर के मारवाह, एएमसी--01 जून 2005

ऐक्टिंग मेजर जनरल से स्थायी मेजर जनरल

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-24544 मेजर जनरल एस वासुदेवन इंजीनियर, रियर्ड--12 मई 2004

आईसी-23850 मेजर जनरल एस एस दहिया, एवीएसएम, वीएसएम, ईएमई--01 जनवरी 2005

ऐक्टिंग ब्रिगेडियर से स्थायी ब्रिगेडियर

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-27555 ब्रिगेडियर एस एन दीक्षित (रियर्ड) वीएसएम, ईएमई--30 सितम्बर 2003

आईसी-27212 ब्रिगेडियर जे के शर्मा, ईएमई--12 मई 2004

ऐक्टिंग मेजर जनरल से स्थायी मेजर जनरल

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-23289 मेजर जनरल एच एम सिंह, एसी--07 जून 2004

ऐक्टिंग ब्रिगेडियर से स्थायी ब्रिगेडियर

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-34095 ब्रिगेडियर नगेन्द्र सिंह, एसी--01 नवम्बर 2004

ऐक्टिंग कर्नल से स्थायी कर्नल

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-42888 कर्नल अजय गुप्ता, एसी--08 सितम्बर 2005

ऐक्टिंग लेफ्टि. कर्नल से स्थायी लेफ्टि. कर्नल

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-42888 ले. कर्नल अजय गुप्ता, एसी--08 सितम्बर 2001

ऐक्टिंग ब्रिगेडियर से स्थायी ब्रिगेडियर

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

आईसी-30704 ब्रिगेडियर अनुप मल्होत्रा, आर्टिलरी--07 जून 2004

ऐक्टिंग एयर वाईस मार्शल से स्थायी एयर वाईस मार्शल

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

11930 एवीएम के के बंदोपाध्याय, प्रशा. (रियर्ड)--01 जुलाई 2004

ऐक्टिंग एयर कमोडोर से स्थायी एयर कमोडोर

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

14361 एयर कमोडोर एन डी शर्मा, एड (एल)--01 जुलाई 2004

14335 एयर कमोडोर वी बी गोले, एड (एल)--01 जनवरी 2005

15082 एयर कमोडोर पी पी कटारकी, एड (एल)--05 अगस्त 2005

ऐक्टिंग ग्रुप कैप्टन से स्थायी ग्रुप कैप्टन

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

15298 ग्रुप कैप्टन आई सुधाकर, एड (एल)--27 जनवरी 2005

ऐक्टिंग विंग कमांडर से स्थायी विंग कमांडर

नाम संख्या तथा रैंक, स्थायी रैंक देने की तारीख

19708 विंगकमांडर यू राजा बाबु, एई एम)--11 सितम्बर 2004

रणबीर सिंह
अतिरिक्त निदेशक/कार्मिक

वायु सेना

सं. 15, दिनांक 05 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

ए इ एल शाखा

चैतन्य एस एस (24143) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

अल्पकालीन सेवा कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

उड़ान शाखा

(मिस) सुजाता द्विवेदी (25919) और (मिस) रंजना वेलू (25920) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

(मिसेज) अनिशा हत्तल (25921), (मिस) मंजु भास्कर (25922), (मिस) गरिमा शर्मा (25923), (मिसेज) रीना कुमारिया (25924), (मिस) रोहिता सक्सेना (25925), (मिस) महिमा शर्मा (25926), (मिसेज) जुली जैक जैकव (25927) और (मिस) सुजाता तिवारी (25928) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

(मिसेज) रिच मार्केण्डेय (25929), (मिस) कुलजिंदर हुंडल (25930), (मिस) सीमा कनैजिया (25931) और (मिस) जशस्वी रथ (25932) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

(मिसेज) मंदीप के चावला (26171), (मिसेज) बोलकरंदा लातिका मदैया (26172), (मिस) फरजाना नाहिद (26174), (मिस) रोचेल्ले सी डी सिल्वा (26175) और (मिस) शलिनी भारद्वाज (26176) 17 जून 2006 से प्रभावी।

लेखा शाखा

(मिस) पुष्पा मिश्रा (26177) और (मिस) अर्चना रोजर्स (26180) 17 जून 2006 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

(मिसेज) अनुराधा शर्मा (26181) 17 जून 2006 से प्रभावी।

ए इ एल शाखा

एच के सिंह (26014) 03 जनवरी 2006 से

ए इ एम शाखा

एल के टंडन (26253) 10 जुलाई 2006 से प्रभावी।

ए इ एल शाखा

वी सिंह (26257), एस सिंह (26259), एस दामोदर (26263), (मिस) चेतना चौधरी (26264), (मिसेज) कुलकर्णी जे डी (26265), और (मिस) एस कल्पना (26268) 10 जुलाई 2006 से प्रभावी।

ए इ एल शाखा

(मिस) रेषु सैनी (26270) 18 जुलाई 2006 से प्रभावी।

उड़ान शाखा

(मिसेज) एस सिरोहि (24110) 03 अगस्त 2006 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

वी प्रकाश (26188), आर नांबिआर (26189), एम वी कुमार (26190), के संतोष (26191), जी के शर्मा (26192), एम एस दास (26193), वी सतीश (26194), ए वर्मा (26195), ए चौधरी (26196), ए नौटियाल (26197), आर अहलावत (26198), जे प्रशांत (26199), पी के तैलंग (26200), पी वी एस सुब्रमनियम (26203), ए रेजी (26205), एन सिंह (26207), 23 जून 2006 से प्रभावी।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

लेखा शाखा

जी यादव (25400) 19 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

आर के यादव (25699) 17 जुलाई 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

एफ सी सी डकोस्टा (25889), एम रामबाबू (25890), एस कुमार (25891), ए सिंह (25892), एम टी मनोज (25893), एस के शर्मा (25894), पी के झा (25895), डी के सिंह (25896), वी के तोमर (25897), एम भारद्वाज (25898), ए पी सिंह (25899) और टी एस वासुदेव (25900) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

एम ए राव (25901), ए के नायर (25902), ए त्रिपाठी (25903), सी एच एम राव (25904), वाई हरिनाथ (25905), के चौहान (25906), के जी मनोज (25907), टी वर्गीस (25908), एन सिंह (25909), के एम राकेश (25910), आर डी यादव (25911), आर एस कुमार (25912), एस श्रीनिधि (25913), टी सिंह (25914), आर जैन (25915), एस मैथ्यजू (25916), एस के जैन (25917) और आर शर्मा (25918) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

आर एस कुशवाहा (26132), ए के चन्देल (26134), जे एस हुडा (26135), पी एस नेगी (26136), एम प्रसाद (26138), ए डी प्रसाद (26139), ए सिंह (26140), पी के यादव (26141), एन ए जानी (26142), एस परमेश्वरन (26143), एन कुमार (26144), वी आचार्या (26145), टी चौधरी (26146), एम श्रीवास्तव (26147), ए कुमार (26148), आर चौधरी (26149), पी के शर्मा (26150), बी रविंद्रनाथ (26151), एन के राणा (26152), ए पंत (26153), एम राजकुमार (26155) और एम के साह (26156) 17 जून 2006 से प्रभावी।

लेखा शाखा

वी वेंकटरमणन (26157), जे आर चंद्रा (26158), एस सक्सेना (26159), एस वर्मा (26160), एम सिंह (26161), वी भाटिया (26162), और एम आई अख्तर (26163) 17 जून 2006 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

सी एस परदेशी (26165), आर कुमार (26166) और एस एस शास्त्री (26167) 17 जून 2006 से प्रभावी।

मौसम शाखा

डी भट्ट (25812) 17 जून 2006 से प्रभावी।

उड़ान शाखा

के बी सिंह (24540) 16 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

ए खुराना (25819), पी ग्रोवर (25820), एच एस लूथरा (25821), जी दांते (25822), ई सी रोड्रिग्युज (25823), टी गुप्ता (25824), एम श्रीकांत (25825), के एच सिंह (25826), एस एस राव (25827), पी भोला (25828), ए शर्मा (25829), एस गूनासेकरन (25830), डी वागची (25832), एन एस पनवर (25833), जी जोसेफ (25835), ए कुमार (25836), आर कुमार (25837), टी एस विद्या (25839), पी आनंद (25842), ए पी कादव (25843), वी यादव (25844), एस ए गद्रे (25846), पी सूर्यवंशी (25848), एस पी डोरा (25849), एच उपाध्याय (25850), डी कुमार (25853), एस गुप्ता (25854), एस मेहरा (25855), डी हरिहरण (25856), एम परगूनन (25857), आर जैन (25859), पी एस चावन (25861), ए बी धनके (25863), एस शर्मा (25864), बी एस ग्रेवाल (25865), जुबेर ए वी शैख (25866), आर के अलवाधी (25867), एफ ए सिंह (25868), ए समई (25869), एस के देशवाल (25870), टी के चौधरी (25871), वी के जोशी (25872), जी नारैन (25873), के सोमनाथन (25874), वी कुट्टप्पन (25875), ए विनोबा (25876), एस कुमार (25877) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

आर कुमार (25847) 18 दिसम्बर 2005 से।

ए इ एल शाखा

एच सी मान (25814) और एन नागराजन (25815) 18 दिसम्बर 2005 से।

वी कुन्दु (26017), वी के बन्धू (26018), ए के बछेती (26019), एस सिंह (26020), आर खजुरिया (26021), पी नागपाल (26022) और आर सिंह (26024) 03 जनवरी 2006 से प्रभावी।

पी एस खुटैल (25771) 04 जुलाई 2005 से प्रभावी।

ए इ एम शाखा

एस एस हीरेमत (26412) 01 जुलाई 2006 से प्रभावी।

जी आई गिरिजेश (26398), आर कार्तिकेयन (26399), जी कायस्थ (26400), एस कुमार (26401), टी नाम्याल (26402), के सिंह (26403) आर आनंदकुमार (26404), पी पदमाराजन (26405), एच जी जोशी (26406), आर यादव (26407), एस के वशिष्ठ (26408), जे बीजूकुमार (26409), आर स्यामन (26410), जे जयराज (26411), के सी सुनिश (26413), के देव (26414), डी एस उद्दीन (26415),

एन शर्मा (26416), एन बघा (26417), ए आर कोलेकर (26418), बी एस सूदान (26419), ए जी नायर (26420), टी आर पदमराज (26421), डी सिंह (26422), एम चौधरी (26423), एस शर्मा (26424), एस घोषाल (26454) और बी सी पाटिल (26507) 07 जनवरी 2006 से प्रभावी।

ए इ एल शाखा

आर सिंह (26430), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी।

ए रेसुना (26425), एन अगगरवाल (26426), एस राय (26427), एस सिवाकुमार (26428), एस यवुराज (26429), ए के कौशल (26431), डी मिश्रा (26432), डी शाहजी (26433), एस पी अमितानंद (26434), एल बी सिंह (26435), टी जार्ज (26436), एन के त्यागी (26437), आर सिंह (26438), ए शर्मा (26439), पी सिंह (26440), वी एम दमोदरन (26441), एल ए मदन (26442), एस चंद्रन (26443), एस एन सुधीन्द्रा (26444), डी आर चन्द्रन (26445), ए तिवारी (26446), पी जे बदकास (26447), ए कौशिक (26448), एम मेहन्दु (26449), एस सुभाष (26450), आर वी पधिकर (26451), एस यादव (26452), एस के साहू (26453), ए प्रसाद (26455), ए आर खान (26456), आर चंद्रा (26508), एन के गुप्ता (26509) 07 जनवरी 2006 से प्रभावी।

ए इ एम शाखा

ए महेश (26641), आर के सिंह (26642), बी पी सिंह (26644), आर अग्रवाल (26645) और के आर पी चंद्रन (26646) 01 जुलाई 2006 से प्रभावी।

ए इ एल शाखा

टी सिंह (26647), एच वी अरोरा (26648), जी शर्मा (26649), एस एम जलाली (26650), डी यादव (26651), जे आर चौरी (26652) और एन के सामल (27109) 01 जुलाई 2006 से प्रभावी।

एफ (एन) शाखा

के कुमार (24967) 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

ए बिष्ट (25878), डब्लू एस वास (25879), आर के रेड्डी (25880), ए वी रेड्डी (25881), आर चौद (25882), के एस असवाल (25883), जे मथ्यू (25884), वी एस शिक्ले (25885), ए सहाय (25887) और वाई ए कुमार (25888) 18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

ए झा (26121), डी के ओझा (26122), जी पी कुमार (26124), जे शंकर (26125), एस घोष (26126), डी पंडा (26127), एम लकरा (26128), आर आर भारद्वाज (26129), और विमलजीत सिंह राठौर (26131) 17 जून 2006 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

आर के जॉन (25701), सी पी पिल्लई (25702), एस प्रकाश (25703), बी एम धनजय (25704), आर अग्रवाल (25707), पी चावला (25708), एम भोग (25709), जे पी एस वर्मा (25710), बी कुमार (25711), वी के मोहन (25712), एस पी देवल्ला (25713), पी एन चेंगप्पा (25714), एन एस यादव (25715), टी डी कर्नाटक (25717),

आर सी वल्लभनेनी (25718), पी कौशिक (25719), ए प्रकाश (25721)
और पी कुलश्रेष्ठ (25722) 22 मार्च 2006 से प्रभावी।

एस. श्रीवास्तव
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3 (डी),

वायु शाखा

सं. 16, दिनांक 07 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

लेखा शाखा

एयर कोमोडोर के मूल रैंक में

वी सिंह (13683) लेखा--01 मार्च 2006

एस समाद्वार (14538) लेखा--01 अप्रैल 2006

शिक्षा शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में

ए एस संधु (रियर्ड) (16273) शिक्षा--03 अप्रैल 2006

सत्येन्द्र कुमार (16283) शिक्षा--15 मई 2006

मौसम विज्ञान शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एम के दत्ता (14426) मौ. वि.--23 दिसम्बर 2005

के वी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक--(अधिकारी)--2बी

सं. 17, दिनांक 01 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के अनुभाग
अधिकारी, श्री आर. सी. आहूजा की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें
30 नवम्बर, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. के. देब
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 18, दिनांक 07 दिसम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष
नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(सैकिण्ड लेफ्टिनेंट के पद पर 11 जून 1988 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20 मई, 1989 को प्रकाशित अधिसूचना
के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक नियमित सेना (स्थायी
आयोग) सैकिण्ड लेफ्टिनेंट के पद पर के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना
निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या आईसी-47739 एल, के सामने के नाम

के लिए--मरेनल मंती नाथ

पढ़े--मरेनल कान्ती नाथ

(अल्प सेवा आयोग)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में 23 सितम्बर 2006 को
प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक "नियमित सेना (अल्प सेवा आयोग)" के
अन्तर्गत उपशीर्षक "ले. के पद पर" के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना
निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

पैरा 1, तालिका के अन्तर्गत :--

के लिये : 01126एम पी प्रवीण, ईएमई

पढ़े : --रिक्त--

पैरा 2, तालिका के अन्तर्गत :--

"01122 डब्ल्यू सालविया एन पिल्लै, 04 अप्रैल 2005, इंजीनियर" के
ठीक नीचे निम्न पंक्ति अंकित करें :--

"01126 एम पी प्रवीणा, 04 अप्रैल 2005, ईएमई"

चन्द्रशेखर

ले. कर्नल

सहायक सेना सचिव 8-बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th January 2007

ARMY BRANCH

No. 01, dated 1st December 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Lt Ram Vir Singh (TA-42658), Engrs—16 Mar 2006

Shailesh Singh Chauhan (TA-42648), Infantry—11 Oct 2005 (FN)

Sanjay Prabhakar Raole (TA-42649), Infantry—14 Oct 2005 (AN)

Uttam Chakraborty (TA-42650), Infantry—24 Oct 2005 (FN)

Shivender Kumar Pandey (TA-42651), Infantry—24 Oct 2005 (FN)

Palden Thakur (TA-42652), Infantry—26 Oct 2005 (FN)

Kirti Kumar N Dave (TA-42653), Infantry—13 Oct 2005 (FN)

Dennis Dmonty (TA-42654), Infantry—01 Nov 2005 (FN)

Ravi M Bisht (TA-42655), Infantry—25 Nov 2005 (FN)

K Shivashekhar Raju (TA-42656), Infantry—09 Nov 2005 (FN)

Bakhrawphang S Kurbah (TA-42657), Infantry—23 Dec 2005 (FN)

Kumar Sharma (TA-42659), Infantry—15 Jan 2006 (AN)

Jaikar Mitheel Suresh (TA-42661), Infantry—24 Apr 2006 (AN)

Nitin Jain (TA-42662), Infantry—24 Apr 2006 (FN)

Sanjay Kumar Chauhan (TA-42663), Infantry—10 Apr 2006 (FN)

N. KALIAPPAN
Under Secy.

No. 02 dated 7th December 2006.—The President is pleased to make the following appointments under the provision of AI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Mar 2005 with seniority for promotion from 04 Nov 2000 but for increments of pay from 04 Mar 2000 on relinquishing their

SSC wef 04 Mar 2005. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-38369, IC-64879 N Vikram Deo Singh—Inf

M. L. N. SRAVAN KUMAR

Col

Col MS-7

No. 03 dated 7th December 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 10 Dec 2004)

Nikhil Dubey (IC-64509N), Inf seniority next below Syed Ashrat Ali (IC-64508L) ASC and Rahul Pandey (IC-64532F), Arty seniority next below Sandeep Singh (IC-64531Y), Inf whose names appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 30 Jul 2005.

(To be Lts w.e.f. 11 Dec 1999)

The undermentioned Gentleman Cadet of 105 Regular Course (105 DE, 95 Ex NDA and 72 Ex ACC) is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 11 Dec 1999 under the provisions of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

Deepankar Das (IC-59464P), Inf seniority next below Nitin Upadhyay (IC-59463M), AD whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 02 Dec 2000.

CHANDER SHEIKHAR

Lt Col

AMS-8B

NAVY BRANCH

No. 04 dated 6th December 2006.—The President is pleased to make the following appointment in the Electrical Branch (General Service Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 06 Jun 2006 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Name of the Officer, P. No., Type of Commission and Date of Commission

Electrical Branch (General Service Cadre)

Kedar Parvin Mahadev (52112-K), SSC—11 Aug 2003

The President is pleased to make the following appointments in the Executive Branch (NAI Cadre) of the

Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 07 Jun 2006 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission and Date of Commission

Executive Branch (NAI Cadre)

R Vineeth Krishnan (05468-A), PC—14 Jul 2003

Manpreet Singh (05472-K), PC—21 Jul 2003

The President is pleased to make the following appointments in the Engineering Branch (General Service Cadre), Engineering Branch (Submarines Cadre), Electrical Branch (General Service Cadre) and Electrical Branch (Submarines Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 29 May 2006 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission and Date of Commission

Engineering Branch (General Service Cadre)

Rajesh Sharma (42375-F), SSC—10 Feb 2003

Rajesh Kumar Sahukari (42377-K), SSC—10 Feb 2003

Puneet Kumar Singh (42379-R), SSC—10 Feb 2003

R Vignesh (42380-T), SSC—10 Feb 2003

Anand (42381-W), SSC—10 Feb 2003

Dinkar Arora (42382-Y), SSC—10 Feb 2003

Sukanta Biswas (42385-B), SSC—10 Feb 2003

Hemant Barku Kandeekar (42386-F), SSC—10 Feb 2003

Amol Kumar Nalavade (42390-R), SSC—10 Feb 2003

KG Abhiman (42396-B), SSC—10 Feb 2003

Karan Chadda (42397-F), SSC—10 Feb 2003

Naresh Kumar Gathania (42398-H), SSC—10 Feb 2003

M Ranjith Mohan (42400-N), SSC—10 Feb 2003

T Prabhar (42401-R), SSC—10 Feb 2003

Santosh Kumar (42402-T), SSC—13 Feb 2003

V Suresh Kuamr (42403-W), SSC—10 Feb 2003

K Vijay Krishna (42404-Y), SSC—12 Feb 2003

K Shodhan (42406-A), SSC—13 Feb 2003

Praveen Kumar AM (42407-B), SSC—17 Feb 2003

Manish Singh (42408-F), SSC—17 Feb 2003

S Manjunath (42409-H), SSC—17 Feb 2003

George Nijo Antony (42411-N), SSC—19 Feb 2003

S Dinesh Prabhu (42412-R), SSC—19 Feb 2003

Sachin Bhagwant Nikam (42413-T), SSC—19 Feb 2003

Prashant Tippanna Devakar (42414-W), SSC—15 Feb 2003

Engineering Branch (Submarines Cadre)

Vithal Podagatlapalli (42375-F), SSC—10 Feb 2003

Atul Verma (42378-N), SSC—10 Feb 2003

Senthil Kumar A (42383-Z), SSC—10 Feb 2003

Ravinder Kasturi (42387-H), SSC—10 Feb 2003

Vijay Sangwan (42388-K), SSC—10 Feb 2003

Electrical Branch (General Service Cadre)

Satish Kumar Kavala (51894-R), SSC—10 Feb 2003

R Srinivasan (51895-T), SSC—10 Feb 2003

Bobby Varghese (51896-W), SSC—10 Feb 2003

G Mathan (51897-Y), SSC—10 Feb 2003

Puspak Roy (51899-A), SSC—10 Feb 2003

Aman Agnihotri (51900-B), SSC—10 Feb 2003

Marad Basavaraj (51902-H), SSC—10 Feb 2003

Simon Cyril (51903-K), SSC—10 Feb 2003

Shubhankar Bhattacharya (51904-N), SSC—10 Feb 2003

L Muthu Kumar (51907-W), SSC—10 Feb 2003

J Vijay Senthil Kumar (51910-A), SSC—10 Feb 2003

Manprert Singh (51911-B), SSC—10 Feb 2003

V Viswanath (51912-F), SSC—10 Feb 2003

Premkumar Rajendiran (51913-H), SSC—10 Feb 2003

Ashwin Sundaresh (51915-N), SSC—10 Feb 2003

Anand Kumar A (51916-R), SSC—10 Feb 2003

MK Rajesh Kumar Naidu (51917-T), SSC—10 Feb 2003

Arunjit Singh Talwar (51918-W), SSC—10 Feb 2003

B Amit (51922-B), SSC—10 Feb 2003

D Gokul (51926-N), SSC—10 Feb 2003

Mathialagan Mohan (51927-R), SSC—10 Feb 2003

PV Narashimha Kumar (51930-Y), SSC—14 Feb 2003

Abhishek Damodaran (51931-Z), SSC—19 Feb 2003

Electrical Branch (Submarines Cadre)

J Harish Kumar (51898-Z), SSC—10 Feb 2003

DK Shrikanth (51901-F), SSC—10 Feb 2003

Sujit Mathew (51908-Y), SSC—10 Feb 2003

S Magesh (51909-Z), SSC—10 Feb 2003

Gaurav Hajare (51914-K), SSC—10 Feb 2003

B Prasanna (51924-H), SSC—10 Feb 2003

D Rajendra Kumar (51928-T), SSC—12 Feb 2003

The President is pleased to make the following appointments in the Executive Branch (General Service), Executive Branch (Logistics Cadre), Executive Branch (Logistics Catering Cadre) and Executive Branch (Air Traffic Control Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 22 May 2006 from the date shown against the name:—

To be Sub Lt (On probation)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission and Date of Commission

Executive Branch [GS (X) Cadre]

Leo Silvano Dias (05320-R), SSC—15 Jul 2002

Abhishek Singh Sakarwar (05321-T), SSC—25 Jul 2002

Amit Kumar (05322-W), SSC—15 Jul 2002

BH Avinash (05323-Y), SSC—15 Jul 2002

Reetesh Sharma (05324-Z), SSC—20 Jul 2002

Anurag Tyagi (05325-A), SSC—15 Jul 2002

Naveen Arora (05326-B), SSC—21 Jul 2002

Sandip Kumar Saha (05327-F), SSC—15 Jul 2002

Vinod Kumar Sunotra (05328-H), SSC—15 Jul 2002

V Srikanth (05329-K), SSC—15 Jul 2002

B Narendra (05330-N), SSC—15 Jul 2002

Deepak Prasad (05331-R), SSC—15 Jul 2002

Akshay Vivek Rao (05332-T), SSC—15 Jul 2002

Rajeev Kumar Jha (05333-W), SSC—15 Jul 2002

Arun Kumar Singh (05334-Y), SSC—15 Jul 2002

Vaman Amarjeet Kini (05335-Z), SSC—15 Jul 2002

Sandeep Satish Randive (05336-A), SSC—12 Aug 2002

Amit Marwah (05337-B), SSC—12 Aug 2002

Parveen Malik (05338-F), SSC—12 Aug 2002

Jasmit Nehal (05339-H), SSC—12 Aug 2002

Apoarna Ramesh Joshi (05340-K), SSC—12 Aug 2002

Vikas Sood (05341-N), SSC—12 Aug 2002

Shilpa (05342-R), SSC—12 Aug 2002

Shweta Sethi (05343-T), SSC—12 Aug 2002

Ramendra Singh (05344-W), SSC—12 Aug 2002

Priyanka Gupta (05345-Y), SSC—12 Aug 2002

Bhavna Salaria (05346-Z), SSC—12 Aug 2002

Sunaina Mariam Augustine (05347-A), SSC—12 Aug 2002

Deepika Singh (05348-B), SSC—12 Aug 2002

Sunaina Vijay Paradkar (05349-F), SSC—12 Aug 2002

Paramjeet Singh (05350-H), SSC—12 Aug 2002

Priya Khurana (05351-K), SSC—12 Aug 2002

Pooja Rajput (05352-N), SSC—18 Aug 2002

Executive Branch (Logistics Catering Cadre)

George Xavier (05353-R), SSC—12 Aug 2002

Parampreet Singh (05354-T), SSC—12 Aug 2002

Vikrant Malhan (05355-W), SSC—12 Aug 2002

N Vimal (05356-Y), SSC—12 Aug 2002

Executive Branch (Air Traffic Control Cadre)

Pushpa Pandey (05310-T), SSC—12 Aug 2002

Sunil Kumar Yadav (05311-W), SSC—12 Aug 2002

Siddhartha Jaitely (05312-Y), SSC—12 Aug 2002

Harmeet Kaur (05313-Z), SSC—12 Aug 2002

Sameer Shori (05314-T), SSC—12 Aug 2002

Jayshree Sarkar (05315-B), SSC—12 Aug 2002

Justine J Puthur (05316-F), SSC—12 Aug 2002

Aditya Singh Rana (05317-H), SSC—12 Aug 2002

Ruchhi Bhatia (05318-K), SSC—12 Aug 2002

Nilu Sinsinwar (05319-N), SSC—12 Aug 2002

OM PRAKASH VERMA

Commander

ARMY BRANCH

No. 05 dated 1st December 2006.—The President is pleased to grant ante date seniority to the following:—

TERRITORIAL ARMY COMMISSION

ANTE DATE SENIORITY

TA-42590 Lt Shantanu Narayan Shimpi who has been granted territorial Army Commission (Inf) wef 31 Dec 2003 in the rank of Lt under the provision of TA Act 1948 is granted ante date seniority in the rank of Lt wef 31 May 2002 for his former service in Indian Navy (02 Jul 2001 to 31 Jan 2003) under the provision of Para 25 (a) and 38 (a) of TA Regs 1948 for increment of pay and promotion purpose.

N. KALIAPPAN

Under Secy.

No. 06 dated 2nd December 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Subedar Major

Sub Ajay Anand (JC-402196L), 12 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on Pay and Allces wef 01 Apr 2006).

Sub Vinod Kumar (JC-402658K), 01 Jun 2006

Sub Kaladhari (JC-402308A), 01 Jun 2006

Sub Biant Ram (JC-402205F), 05 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Sub Dhyan Singh (JC-402035H), 01 Jul 2006

Sub Satyender Kumar Shukla (JC-402725M), 02 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on Pay and Allces wef 01 Sep 2006).

Sub Purshotam Singh Patial (JC-402370M), 01 Sep 2006

To be Subedar

Nb Sub Umed Singh (JC-403133P), 03 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Sep 2004).

Nb Sub Ram Krishan (JC-403093Y), 08 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Aug 2005).

Nb Sub Muni Ram Tirkey (JC-403146M), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Nov 2005).

Nb Sub Karan Singh (JC-403371F), 31 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 06 Dec 2005).

Nb Sub Shri Pal Singh Negi (JC-403389X), 01 Jan 2006

Nb Sub Mool Chand (JC-403428L), 01 Jan 2006

Nb Sub Matuk Singh (JC-403147P), 01 Jan 2006

Nb Sub Haresh Ch Dutta (JC-403148X), 01 Jan 2006

Nb Sub Bishan Singh (JC-403392X), 13 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Nb Sub Chand Singh (JC-403512L), 31 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Nb Sub Indra Pal Singh (JC-403117X), 16 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 18 Jan 2006).

Nb Sub Ran Singh (JC-403326P), 22 Jan 2006

Nb Sub Kuldip Singh Manhas (JC-403211F), 13 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 23 Jan 2006).

Nb Sub Surender Singh Chaudhary (JC-402999X), 01 Feb 2006

Nb Sub Virendrapal Singh (JC-403082M), 01 Feb 2006

Nb Sub Dhirender Kumar (JC-403094F), 01 Feb 2006

Nb Sub Vijai Kumar (JC-403355K), 28 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 05 Feb 2006).

Nb Sub Raj Pal (JC-403434Y), 01 Mar 2006

Nb Sub Chet Ram Harijan (JC-403330X), 01 Mar 2006

Nb Sub Gajvir Singh (JC-403517K), 01 Mar 2006

Nb Sub Bir Bahadur (JC-403135A), 01 Mar 2006

Nb Sub Pharen Chandra Baruah (JC-403273P), 23 Mar 2006

Nb Sub Gopalan KP (JC-403258M), 01 Apr 2006

Nb Sub Nagarajan R (JC-403279H), 01 Apr 2006

Nb Sub G Nanasekaran M (JC-403304W), 01 Apr 2006

Nb Sub Prem Singh (JC-403391P), 01 Apr 2006

Nb Sub Rajendra Prasad Singh (JC-403138N), 01 Apr 2006

Nb Sub Jhabar Singh (JC-403186N), 01 Apr 2006

Nb Sub Ram Suresh Yadav (JC-403205N), 13 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Apr 2006).

Nb Sub Mahendra Kumar Rout (JC-403343P), 13 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 02 Apr 2006).

Nb Sub Pancham Singh (JC-403176K), 16 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 18 Apr 2006).

Nb Sub Krishna Kumar (JC-403462L), 01 May 2006

Nb Sub Anil Kumar (JC-403476L), 01 May 2006

Nb Sub Devendra Singh (JC-403263Y), 16 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 May 2006).

Nb Sub Rajinder Kumar (JC-403472P), 21 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 May 2006).

Nb Sub Mayadhar Mahani (JC-403262P), 31 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 May 2006).

Nb Sub Ranbir (JC-403503K), 21 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 May 2006).

Nb Sub Krishan Pal (JC-403443A), 30 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 May 2006).

Nb Sub Ram Kumar Pradhan (JC-403150P), 01 Jun 2006

Nb Sub Shankar Singh (JC-403315H), 30 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Nb Sub Ram Lal Sahu (JC-403243K), 01 Jun 2006

Nb Sub Subhash Singh (JC-403244M), 01 Jun 2006

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-403578F), 01 Jun 2006

Nb Sub Jag Ram (JC-403583M), 01 Jun 2006

Nb Sub Banamali Parida (JC-403396N), 01 Jun 2006

Nb Sub Dalveer Singh (JC-403187W), 01 Jun 2006

Nb Sub Ram Raj (JC-403239F), 11 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Nb Sub Krishan Kumar (JC-403603P), 14 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Nb Sub Kalyan Ram (JC-403584P), 01 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Nb Sub Bali Ram Singh (JC-403164P), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Nb Sub Ram Pal (JC-403395L), 02 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Nb Sub Rajpal Singh Chahar (JC-403514W), 01 Jul 2006

Nb Sub Baladeen (JC-403356M), 10 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jul 2006).

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Cik) Baljeet Singh (JC-403131K), 01 Dec 2005

Nb Sub (Cik) Promod Kumar Singh (JC-403154L), 01 Mar 2006

Nb Sub (Cik) Ram Bharosi Lal (JC-403157Y), 01 Mar 2006

Nb Sub (Cik) Umesh Chaudhary (JC-403203H), 01 May 2006

Nb Sub (Cik) Mohan Singh Mehta (JC-403192F), 01 Jun 2006

Nb Sub (Cik) Jai Prakah (JC-403216A), 01 Jul 2006

Nb Sub (Cik) Shambhu Singh (JC-403217H), 01 Aug 2006

To be Nb Sub

Hav Ran Singh (No. 13688412Y now JC-403878H), 08 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 30 Dec 2005).

Hav Om Prakash Gautam (No. 13686857M now JC-403879L), 01 Jan 2006

Hav Tejvir Singh Chahar (No. 13687030H now JC-403880A), 21 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Hav Vijay Singh (No. 13687045L now JC-403881H), 01 Jan 2006

Hav Ram Niwas (No. 13687204X now JC-403882L), 01 Jan 2006

Hav Raj Singh (No. 13684241A now JC-403883N), 11 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Hav Kamal Singh (No. 13684484L now JC-403884W), 01 Jan 2006

Hav Hari Ram (No. 13685801N now JC-403885Y), 01 Jan 2006

Hav Ramvir Singh (No. 13687066F now JC-403886F), 08 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Hav Navrang Singh (No. 13687269L now JC-403887K), 05 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Hav Jai Pal (No. 13688276N now JC-403888M), 01 Jan 2006

Hav Baljit Singh (No. 13686449F now JC-403889P), 31 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jan 2006).

Hav Awadhesh Kumar (No. 13688443Y now JC-403890K), 01 Jan 2006

Hav Chandra Aind (No. 13688451X now JC-403891M), 01 Jan 2006

Hav Shiv Bilash Singh Yadava (No. 13688391N now JC-403892P), 02 Jan 2006

Hav Sukh Lal Singh (No. 13686844P now JC-403893X), 04 Jan 2006

Hav Ashokan NV (No. 13688694H now JC-403894A), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 18 Jan 2006).

Hav Dharam Pal Singh (No. 13688744H now JC-403895H), 25 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 23 Jan 2006).

Hav Madal Lal (No. 13688427F now JC-403896L), 01 Feb 2006

Hav Hari Babu (No. 13684730L now JC-403897N), 01 Feb 2006

Hav Rajesh Kumar (No. 13688467H now JC-403898W), 18 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Feb 2006).

Hav Krishan Chand (No. 13688407N now JC-403899Y), 01 Feb 2006

Hav Rajendra Prasad (No. 13684174A now JC-403900H), 01 Feb 2006

Hav Bhikshyakari Sahoo (No. 13686838F now JC-403901L), 01 Feb 2006

Hav Tejinder Singh (No. 13688509K now JC-403902N), 01 Feb 2006

Hav Shashi Shankar Singh (No. 13690754L now JC-403903W), 01 Feb 2006

Hav Jam Shed Ali (No. 13688964M now JC-403904Y), 01 Feb 2006

Hav Hari Om Singh (No. 13688996P now JC-403905F), 03 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Feb 2006).

Hav Gurdial Singh (No. 13688590F now JC-403906K), 13 Feb 2006

Hav Bajrang Singh (No. 13687275Y now JC-403907M), 01 Mar 2006

Hav Ganesha Ram (No. 13685802W now JC-403908P), 01 Mar 2006

Hav Bhagwan Kushwaha (No. 13684282K now JC-403909X), 27 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Sep 2004).

Hav Dhan Bahadur Chhettri (No. 13684952A now JC-403910M), 01 Feb 2006

Hav Birendra Singh (No. 13685330L now JC-403911P), 17 Feb 2006

Hav Shankar Lal (No. 13688599W now JC-403912X), 01 Mar 2006

Hav Lallu Singh (No. 13690988P now JC-403913A), 01 Mar 2006

Hav Ram Bichar (No. 13685498X now JC-403917W), 01 Mar 2006

Hav Pramod PG (No. 13691460K now JC-403918Y), 13 Mar 2006

Hav Rajan C (No. 13692647H now JC-403919F), 01 Apr 2006

Hav Rejimon M (No. 13692815W now JC-403920W), 01 Apr 2006

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Lal Kishor Prasad Chaurasia (No. 13686672L now JC-403914H), 01 Mar 2006

Hav (Clk) Krishna Kumar (No. 13687059L now JC-403915L), 01 Mar 2006

Hav (Clk) Bhupendra Singh (No. 13687113N now JC-403916N), 01 Mar 2006

Hav (Clk) Mihir Kumar Paul (No. 13687115Y now JC-403936F), 01 May 2006

Hav (Clk) Kanwar Sahab (No. 13686556H now JC-403946L), 01 Jun 2006

To be Nb Sub

Hav Devinder Kumar (No. 13685867K now JC-403921Y), 01 Apr 2006

Hav Videsh Kumar (No. 13687512X now JC-403922F), 26 Dec 2005

Hav Indrapal Chaturvedi (No. 13689353K now JC-403923K), 01 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Mar 2006).

Hav Kailash Chander (No. 13687799A now JC-403924M), 23 Mar 2006

Hav Awadhesh Kumar (No. 13689597X now JC-403925P), 01 Apr 2006

Hav Jadhav Rajendra Rupa Chand (No. 13688571W now JC-403926X), 18 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Apr 2006).

Hav Bas Deo (No. 13687826Y now JC-403927A), 01 Apr 2006

Hav Diwan Singh Chouhan (No. 13688814W now JC-403928H), 02 Apr 2006*

Hav Ajit Singh (No. 13688574K now JC-403929L, 04 Apr 2006*

Hav Naresh Singh (No. 13687410F now JC-403930A), 16 Apr 2006

Hav Sukhdewa Ram Meghwal (No. 13696207M now JC-403931H), 12 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 20 Apr 2006).

Hav Shri Pal Singh (No. 13688686K now JC-403932L), 21 Apr 2006

Hav Tanigondla VN Reddy (No. 13688582H now JC-403933N), 30 Apr 2006

Hav Lokhswar Borah (No. 13684410W now JC-403934W), 01 May 2006

Hav Ashok Kumar (No. 13684037F now JC-403935Y), 15 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 May 2006).

Hav Tribhuvan Upmanyu (No. 13686668H now JC-403937K), 01 May 2006

Hav Joga Singh (No. 3383313W now JC-403938M), 26 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 09 May 2006).

Hav Braham Prakash (No. 13688706M now JC-403939P), 15 May 2006

Hav Govinda Rajan M (No. 13688707P now JC-403940K), 20 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 17 Mar 2006).

Hav Debendra Bh Thapa (No. 13684612X now JC-403941M), 01 Jun 2006

Hav Suresh Chandra (No. 13684824H now JC-403942P), 16 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav Adwin Lakra (No. 13688134W now JC-403943X), 01 Jun 2006*

Hav Manik Chandra Ray (No. 13689212P now JC-403944A), 01 Jun 2006

Hav Sheo Bachan Singh Kushwaha (No. 13688492F now JC-403945H), 24 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav Dilip Singh (No. 13684230N now JC-403948W), 01 Jun 2006

Hav Rajendra Kumar Yadav (No. 13688066N now JC-403949Y), 01 Jun 2006

Hav Ami Lal (No. 13688067W now JC-403950N), 15 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav Phool Chand (No. 13688154K now JC-403951W), 23 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav Mahabir Singh (No. 13685059M now JC-403954K), 11 Jun 2006

Hav Dinesh Chandra (No. 13683566F now JC-403955M), 12 Jun 2006

Hav Bal Krishan Mahor (No. 13686587H now JC-403956P), 12 Jun 2006

Hav Kamlesh Kumar (No. 13687788N now JC-403957X), 10 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 12 Jun 2006).

Hav Rajendra Singh (No. 13685152N now JC-403958A), 01 Jul 2006

Hav Gurcharan Singh (No. 3383884P now JC-403959H), 01 Jul 2006

Hav Shailesh Kumar Thakur (No. 13688944Y now JC-403960X), 19 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jul 2006).

Hav Sarwan Kumar (No. 13688697W now JC-403961A), 16 May 2006

Hav Ran Bahadur (No. 13688523W now JC-403962H), 01 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 31 May 2006).

Hav Gomati Singh (No. 13683739N now JC-403963L), 01 Jun 2006

Hav Raj Kumar Sahu (No. 13686058W now JC-403964N), 01 Jun 2006

Hav Ram Naresh (No. 13687031L now JC-403965W), 01 Jun 2006

Hav Ghewar Ram Dudi (No. 13689021A now JC-403966Y), 18 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav Shishu Pal (No. 13689223F now JC-403967F), 01 Jun 2006

Hav Sangam Lal Gupta (No. 13686251H now JC-403969M), 14 Jun 2006

Hav Sant Lal (No. 13689555L now JC-403970F), 25 Jun 2006

Hav Anil Kumar (No. 13689104L now JC-403974Y), 01 Jul 2006

Hav Rajesh Prasad Mishra (No. 13691210H now JC-403978M), 01 Aug 2006

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Rajendra Prasad Bhagat (No. 13687121M now JC-403947N), 20 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav (Clk) Amrit Narayan Kumar (No. 13687125H now JC-403953F), 07 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect on Pay and Allces wef 01 Jun 2006).

Hav (Clk) Tanmoy Biswas (No. 13687128W now JC-403971K), 20 Jul 2006

Hav (Clk) Shri Ram Singh (No. 13686550F now JC-403972M), 01 Jul 2006

Hav (Clk) Aditya Kumar Hazra (No. 13687142H now JC-403973P), 01 Jul 2006

THE PRESIDENT'S BODYGUARD

To be Nb Ris (GD)

RDM Rohtash Singh (13700395Y now JC-235047N), 01 Oct 2006

Dfr Ravikant (No. 13700406A now JC-235048W), 01 Oct 2006

ARMoured CORPS

To be Substantive Risaldar

Nb Ris Rajvir Singh (JC-239526M), 01 Dec 2004

Nb Ris Akkalwar Kawadu Udhaio (JC-240268M), 09 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Ashok Kumar Singh (JC-239739A), 07 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Purushottam Singh (JC-238589A), 13 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Pandurang Popat Jadhav (JC-239253P), 01 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Sant Kumar Singh (JC-240009F), 08 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Sukhwinder Singh (JC-239566N), 26 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Anant Ram Sharma (JC-238852H), 20 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris P Siva Balan (JC-239896M), 12 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Raghunathan Nair MN (JC-239608P), 05 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Jaipal Singh (JC-240154Y), 12 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Rishi Ram (JC-239827W), 25 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Ram Naresh Ram (JC-238427X), 01 Oct 2005

Nb Ris Manbir Singh (JC-240173K), 01 Oct 2005

Nb Ris Raman Lal (JC-240127P), 14 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 28 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Ranjit Singh (JC-240204Y), 16 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Awadh Bihari Singh (JC-239653F), 08 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Dinesh Singh (JC-239918A), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Bayas Thakur Haridayal Singh (JC-239622F), 22 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Shashidhar Kumar KN (JC-240248W), 02 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Dattatray Havldar (JC-239035W), 01 Nov 2005

Nb Ris S Rajendran (JC-239549N), 01 Nov 2005

Nb Ris Mehetre Dattatraya Bapu Rao (JC-239464X), 09 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Balsan TM (JC-240364Y), 11 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Baj Singh (JC-239628H), 01 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Manjit Singh (JC-239535W), 04 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 20 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Jasbir Singh (JC-239746W), 16 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Malkiat Singh (JC-240272M), 01 Dec 2005

Nb Ris Sukhdev Singh (JC-240080P), 01 Dec 2005

Nb Ris Udaybir Singh (JC-240449P), 01 Dec 2005

Nb Ris Harpal Singh (JC-239349X), 03 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Kshir Sagar Sadashiv Maruti (JC-239365P), 04 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Agya Ram (JC-239393F), 02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Dharamvir Singh (JC-239036Y), 01 Dec 2005

Nb Ris Suresh Kumar Roy (JC-239543M), 20 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Rama Pati Tewari (JC-239609X), 20 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Ashok Kumar (JC-240196L), 26 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Shinde Gorakh Mahadu (JC-239808L), 03 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Tej Singh (JC-239817M), 03 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Ganesh Prasad Sharma (JC-239960X), 17 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Pichandi C (JC-239680L), 01 Jan 2006

Nb Ris Tapan Kumar Ghosh (JC-240519H), 01 Jan 2006

Nb Ris Ram Pal Singh (JC-240193X), 11 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Birendra Kumar (JC-240265W), 27 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Rajendra Singh Chauhan (JC-240306P), 25 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Raghunath (JC-239916P), 12 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Murleedharan Pillai T (JC-240040N), 05 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Suleman Khalkho (JC-240226X), 30 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris P Obula Reddy (JC-238992M), 04 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Prasanna Chandra Das (JC-239986N), 02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Karamvir Singh (JC-240346W), 01 Mar 2006

Nb Ris Om Prakash Singh (JC-239426F), 02 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Bachan Singh (JC-239953H), 01 Mar 2006

Nb Ris I Nazeer Raja (JC-239410W), 09 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Ris Atish Kumar Das Dev Sarma (JC-239411Y), 09 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Ris

Dfr Bhogeswar Saikia (No. 01072049H now JC-241718H), 04 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sohrai Herenj (No. 01070627N now JC-241719L), 06 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Raj Singh Sehrawat (No. 01076441A now JC-241735H), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Prahalad Kumar (No. 01082316M now JC-241743F), 27 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahesh Chand (No. 01075549L now JC-241757F), 06 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sukhbir Singh (No. 01074597Y now JC-241768N), 07 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ganga Shay (No. 01071689A now JC-241793M), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sarbdew Ray (No. 01071541F now JC-241802H), 06 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Joginder Singh (No. 01078618F now JC-241805W), 05 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Deep Chand Chauhan (No. 01071983A now JC-241806Y), 12 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Shaik Mahaboob Peera (No. 01068141K now JC-241807F), 30 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ajay Kumar Singh (No. 01072013K now JC-241809M), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Satyendra Pal Singh (No. 01076512W now JC-241810F), 01 Jul 2006

Dfr Patli Rajaram Atmaram (No. 01072673F now JC-241813P), 25 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Akare Khemunanda Shri Ram (No. 01072674K now JC-241814X), 25 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Kulbhushan Singh (No. 01076379Y now JC-241816H), 10 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Prakash Chand (No. 01077089N now JC-241817L), 06 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Thube Achyat Namdev (No. 01075220F now JC-241715P), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Puttu Lal (No. 01072984P now JC-241733X), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Paramjit Singh (No. 15469277K now JC-241741W), 06 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 02 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Nand Kishore Prasad (No. 01071998H now JC-241742Y), 29 May 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Singh (No. 01078413M now JC-241746P), 13 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhim Singh (No. 01076653L now JC-241756Y), 19 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Raghubar Singh (No. 01078285A now JC-241766H), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Durgeswar Chetia (No. 01070554M now JC-241769W), 12 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajiv Lochan Pandey (No. 01071951X now JC-241770L), 12 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Prahlad Ram Meena (No. 01072260X now JC-241772W), 12 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Lakshman Singh (No. 01072485A now JC-241773Y), 12 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jabar Singh Udawat (No. 01071449H now JC-241760F), 01 Jul 2006

Dfr Dalbir Singh (No. 01080876A now JC-241764X), 24 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahender Pal Singh (No. 01081171A now JC-241765A), 22 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Bijender Singh (No. 01075316K now JC-241767L), 28 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Kashmir Singh (No. 01078308W now JC-241771N), 07 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Shiekh Afsar (No. 01077222L now JC-241774F), 22 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Karan Pal (No. 01078651Y now JC-241775K), 22 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Devassy Kutty KP (No. 01074262F now JC-241776M), 24 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Himmant Singh (No. 01071506Y now JC-241777P), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Yeshwante Pandurang Namdeo (No. 01075151W now JC-241779A), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Madhu Soodanan Nittoor (No. 01076715A now JC-241784L), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Kaptan Singh (No. 01071493M now JC-241785N), 01 Jul 2006

Dfr Bhagirath Ram Khilery (No. 01072410H now JC-241786W), 01 Jul 2006

Dfr Balbir Singh (No. 01078778F now JC-241706N), 14 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Azad Singh (No. 01071522W now JC-241795X), 24 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Nand Lal (No. 01077090H now JC-241798L), 02 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 16 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ombir Singh (No. 01077685A now JC-241800X), 29 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Suresh Chand Sharma (No. 01071695N now JC-241804N), 29 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sukhdev Singh (No. 01071092X now JC-241808K), 01 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Satish Kumar (No. 01071580A now JC-241812M), 03 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Kana Ram (No. 01076197L now JC-241820L), 01 Aug 2006

Dfr Bharat Singh (No. 01071329K now JC-241821N), 01 Aug 2006

Dfr Pan Singh (No. 01075425W now JC-241824F), 01 Aug 2006

Dfr Shri Ram (No. 01071587K now JC-241825K), 01 Aug 2006

Dfr Surendra Singh (No. 01072018H now JC-241826M), 01 Aug 2006

Dfr Sohan Singh (No. 01072171Y now JC-241827P), 01 Aug 2006

Dfr Gurcharan Singh (No. 01072279W now JC-241828X), 01 Aug 2006

Dfr Udai Bhan (No. 01075632H now JC-241830P), 01 Aug 2006

Dfr Balbir Singh (No. 01079009K now JC-241831X), 01 Aug 2006

Dfr Jawanjal Vinayak Bhaurao (No. 01075230L now JC-241783H), 01 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Parmail Singh Dhatwalia (No. 01069109F now JC-241794P), 11 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhinya Ram Bhinchar (No. 01076094M now JC-241796A), 02 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Chander (No. 01068142M now JC-241801A), 05 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Vidaya Sagar (No. 01071966A now JC-241803L), 28 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr G Jayavel (No. 01074645N now JC-241811K), 31 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Chuni Lal (No. 01076467P now JC-241819W), 03 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Hawa Singh (No. 01071108X now JC-241822W), 08 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Bijendra Singh (No. 01073351N now JC-241823Y), 08 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Thomas K J (No. 01075438N now JC-241829A), 12 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ravi Shanker Shahi (No. 01072545K now JC-241832A), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Lakhan Singh (No. 01078402A now JC-241834L), 07 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Kashmir Singh (No. 01074794F now JC-241836W), 07 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jagat Singh (No. 01072313L now JC-241837Y), 03 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 09 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Samshar Singh (No. 01076697H now JC-241841F), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 12 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sewa Singh (No. 01076690Y now JC-241844P), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Devraj (No. 01074831K now JC-241846A), 12 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Khyal Singh (No. 01072986A now JC-241849N), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Mala Reddy S Sreenivasu (No. 01073182X now JC-241850H), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Mohammad Ahinul Haque (No. 01071886H now JC-241851L), 03 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jagdish Chander (No. 01071484L now JC-241852N), 15 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Lakhi Baruah (No. 01072052H now JC-241853W), 10 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Baran Vishvakarma (No. 01072373A now JC-241854Y), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jagphool Singh (No. 01078440W now JC-241855F), 14 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Punyadeo Rai (No. 01072728A now JC-241856K), 17 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 07, dated 1st December 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
(ARMY MEDICAL CORPS)

To be substantive Subedar Major (Health Assistant)

Sub K Baskar (JC-690544L), 01 Jun 2005

Sub Brahma Ram Sharma (JC-690894X), 01 Mar 2006

To be substantive Subedar Major (Pharmacist)

Sub Bharat Singh (JC-690984Y), 01 Aug 2005

Sub Kasi Prasad K (JC-690703X), 01 Oct 2005

To be substantive Subedar Major (Operation Room Asstt.)

Sub Baban Rai (JC-691140P), 01 Nov 2005

Sub Narayanan K (JC-691254A), 01 Feb 2006

To be substantive Subedar Major (Special Treatment Assistant)

Sub Satyanarayan Ghosh (JC-692194L), 01 Nov 2005

To be substantive Subedar Major (Laboratory Assistant)

Sub Sakti Pada Goswami (JC-692238P), 01 Dec 2005

To be substantive Subedar Major (Psychiatric Nursing Assistant)

Sub krishna Pada Roy (JC-692600X), 01 Feb 2006

To be substantive Subedar Major (Radiography)

Sub Viswanathan Vayakkath Matathil (JC-216980A), 01 Apr 2006

Sub Jabar Singh Inda (JC-217327Y), 01 May 2006

To be substantive Subedar (Operation Room Assistant)

Nb Sub Radhe Shyam (JC-693968M), 01 Sep 2005

Nb Sub Jagat Singh (JC-693929N), 01 Sep 2005

Nb Sub Onkar Chand Rana (JC-693931L), 01 Oct 2005

Nb Sub Bikram Singh Kanwar (JC-693930H), 01 Oct 2005

Nb Sub Venkatesan M (JC-693969P), 01 Oct 2005

Nb Sub Palas Ram (JC-693972P), 01 Oct 2005

Nb Sub Ram Prakash (JC-693973X), 01 Oct 2005

Nb Sub Surendra Nath Sethy (JC-693974A), 01 Nov 2005

Nb Sub Rajendran U (JC-694048F), 01 Dec 2005

Nb Sub Ramhit (JC-693970K), 01 Dec 2005

Nb Sub Kamal Singh Dasila (JC-694103M), 01 Dec 2005

Nb Sub Hari Mohan (JC-694079F), 01 Dec 2005

Nb Sub Gawali Suresh Dnyanaraj (JC-694080W), 01 Dec 2005

Nb Sub Nil Mani Singha Rajkumar (JC-694082F), 01 Dec 2005

Nb Sub Sibas Chandra Naik (JC-694133K), 01 Jan 2006

Nb Sub Raghunath Nayak (JC-694104P), 01 Jan 2006

Nb Sub Suresh Prasad (JC-694153X), 01 Feb 2006

Nb Sub Suresh Kumar P (JC-694190L), 01 Mar 2006
 Nb Sub Khajur Singh (JC-694195K), 01 Mar 2006
 Nb Sub Amar Nath Pandey (JC-694210N), 01 Apr 2006
 Nb Sub Rajbir (JC-694289F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Satya Ranjan Biswas (JC-694290W), 01 Apr 2006
 Nb Sub Mohanan Nair MR (JC-694294M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ganeswara Samal (JC-694367N), 01 Apr 2006
 Nb Sub Padmanabhan Theeyancheri Veetu (JC-694358M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ananta Kalita (JC-694359P), 01 Apr 2006
 Nb Sub Rajendran U (JC-694209Y), 01 Apr 2006
 Nb Sub Phool Singh Yadav (JC-694414A), 01 Jun 2006
 To be substantive subedar (Special Treatment Assistant)
 Nb Sub Krishna Kumar Singha (JC-694363X), 01 Sep 2005
 Nb Sub Ramesh Chand Sharma (JC-694362P), 01 Sep 2005
 Nb Sub Rajender Kumar Sharma (JC-694299N), 01 Oct 2005
 Nb Sub Narender Kumar (JC-694372Y), 01 Nov 2005
 Nb Sub Viswanathan V (JC-694445A), 01 Nov 2005
 Nb Sub Md Akbar Shaikh (JC-694151M), 01 Jan 2006
 Nb Sub Mandav Gane Shashikant Narhar (JC-694546N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Mahajan Tarachand Gangadhar (JC-594677Y), 01 Mar 2006
 Nb Sub Tulshi Ram Bahuguna (JC-694676W), 01 Mar 2006
 Nb Sub Dilip Kumar Sahoo (JC-694802X), 01 Jun 2006
 Nb Sub Md Abdul Karim (JC-694830M), 01 Jun 2006
 Nb Sub Virand Kumar (JC-694827K), 01 Jun 2006
 To be substantive Subedar (Laboratory Technician)
 Nb Sub Kailash Singh (JC-694197P), 01 Jul 2005
 Nb Sub S Chinnan (JC-694207N), 01 Aug 2005
 Nb Sub Satayavir Singh (JC-694213F), 01 Sep 2005
 Nb Sub Nikam Dhondiba Hariba (JC-694224N), 01 Sep 2005
 Nb Sub Chander Pal Singh (JC-694226Y), 01 Sep 2005
 Nb Sub Narayan Sasmya (JC-694284H), 01 Sep 2005
 Nb Sub Balram Pandey (JC-694297F), 01 Oct 2005
 Nb Sub Gajinder Kumar (JC-694298K), 01 Oct 2005

Nb Sub Doongar Ram Suthar (JC-694350A), 01 Oct 2005
 Nb Sub Anathbandhu Gupta (JC-694351H), 01 Oct 2005
 Nb Sub Sumer Singh (JC-694286N), 01 Oct 2005
 Nb Sub Bhuwaneshwar Prasad (JC-694352L), 01 Nov 2005
 Nb Sub Ramji Sharma (JC-694353N), 01 Nov 2005
 Nb Sub Surender Nath Rai (JC-694429H), 01 Dec 2005
 Nb Sub Mohanan Pillai B (JC-694354W), 01 Dec 2005
 Nb Sub Rajendra Prasad (JC-694430K), 01 Jan 2006
 Nb Sub Narasimha Rao Tanneru (JC-694655A), 01 Jun 2006
 To be substantive Subedar (Laboratory Assistant)
 Nb Sub Bajrangi Singh (JC-694188N), 01 Jul 2005
 Nb Sub Harpal Singh (JC-694285L), 01 Oct 2005
 Nb Sub Satendra Kumar Sharma (JC-694427X), 01 Dec 2005
 Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-694366L), 01 Dec 2005
 Nb Sub Birendra Kumar Pandey (JC-694547W), 01 Jan 2006
 Nb Sub Rudrappa Karimallannanavar (JC-694548Y), 01 Jan 2006
 Nb Sub Pramod Kumar Sukla (JC-694654X), 01 Jun 2006
 To be substantive Subedar (Pharmacist)
 Nb Sub Jitinder Singh (JC-692936X), 01 Oct 2005
 Nb Sub Dayanand (JC-692665L), 01 Nov 2005
 Nb Sub Karambir Singh (JC-692666N), 01 Dec 2005
 Nb Sub Raveendra Shetty B (JC-692667W), 01 Jan 2006
 Nb Sub Mahabir Singh (JC-692668Y), 01 Jan 2006
 Nb Sub Sukhvir Singh (JC-692669F), 01 Jan 2006
 Nb Sub Banwari Lal (JC-692670W), 01 Feb 2006
 Nb Sub Radhakrishnan N (JC-692971A), 01 Feb 2006
 Nb Sub Jeetendra Rai (JC-693002M), 01 May 2006
 Nb Sub K Gopa Kumar (JC-693027Y), 01 Jul 2006
 To be substantive Subedar (Psychiatric Nursing Assistant)
 Nb Sub Jalamallic (JC-693860P), 01 Oct 2005
 Nb Sub Jayanta Kumar Nayak (JC-693861X), 01 Feb 2006
 Nb Sub Sasidharan Pillai S (JC-694044L), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ajit Kumar Talukdar (JC-694441K), 01 Apr 2006

Nb Sub Ganesh Chandra Nandi (JC-694442M), 01 Apr 2006

Nb Sub Dilip Chandra Das (JC-694443P), 01 Apr 2006

Nb Sub Satnam Singh (JC-694542X), 01 Apr 2006

Nb Sub Ishwar Singh (JC-694673N), 01 Jun 2006

To be substantive Subedar (Radiographer)

Nb Sub Balakrishna A (JC-692556Y), 01 Sep 2005

Nb Sub N Natarajan (JC-692557F), 01 Oct 2005

Nb Sub Sahb Singh (JC-692559M), 01 Dec 2005

Nb Sub Binod Kumar Srivastav (JC-692679L), 01 Jan 2006

Nb Sub Sankuru Balachinnaiah (JC-692681H), 01 Mar 2006

Nb Sub Dhandhalya Chithar Bhai Bhavani Shanker (JC-692615A), 01 Mar 2006

Nb Sub Dinesh Singh (JC-692616H), 01 Mar 2006

Nb Sub Jai Krishan Joshi (JC-692684Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Debajyoti Datta Chaudhuri (JC-692686F), 01 Apr 2006

Nb Sub Balakrishnan K (JC-692683N), 01 Apr 2006

Nb Sub Surender Singh (JC-692685W), 01 Apr 2006

To be substantive Subedar (X-Ray)

Nb Sub Chandra Naik Patil (JC-692680A), 01 Jan 2006

To be substantive Subedar (Dental Hygienist)

Nb Sub Mansa Ram (JC-694229M), 01 Jan 2006

Nb Sub Janardhanan TK (JC-694291Y), 01 Feb 2006

Nb Sub Parshotam Singh (JC-694446H), 01 Mar 2006

Nb Sub Sundaresan PL (JC-694447L), 01 Mar 2006

Nb Sub Puran Singh Shahi (JC-694448N), 01 Mar 2006

Nb Sub Rajendra Baboo Ojha (JC-694449W), 01 Mar 2006

Nb Sub Johnson KM (JC-694450L), 01 Mar 2006

Nb Sub Samuel VA (JC-694371W), 01 Mar 2006

Nb Sub Ranbir Singh (JC-694532N), 01 Apr 2006

Nb Sub Hanamant Jadhav (JC-694661N), 01 Apr 2006

Nb Sub Ved Vayas (JC-694662W), 01 Jun 2006

To be Substantive Subedar (Dental Technician)

Nb Sub Thomas PJ (JC-692529P), 01 Jun 2005

Nb Sub Yad Ram (JC-692530K), 01 Mar 2006

Nb Sub Shish Ram Budania (JC-692531M), 01 Jul 2006

To be Substantive Subedar (Dental Operation Room Assistant)

Nb Sub Apurba Kumar Ghose (JC-693539L), 01 Jan 2006

Nb Sub Subh Narayan Gupta (JC-694036M), 01 Jan 2006

Nb Sub Benoy Kumar Biswas (JC-693975H), 01 May 2006

Nb Sub Ambika Nandan Rawat (JC-694075L), 01 May 2006

To be substantive Subedar (Blood Transfusion Assistant)

Nb Sub Ramesh Chandra Barik (JC-694440F), 01 Aug 2005

Nb Sub Christophar Lakra (JC-694556X), 01 Aug 2005

Nb Sub Balwan Singh (JC-694552F), 01 Oct 2005

Nb Sub Pulikeshi Patil (JC-694550W), 06 Dec 2005

Nb Sub Veera Kumar C (JC-694438K), 06 Dec 2005

Nb Sub Shekara Shetty (JC-694557A), 01 Mar 2006

Nb Sub Ashok Kumar Jha (JC-694653P), 01 Jun 2006

Nb Sub Om Prakash Singh Negi (JC-694850X), 01 Jun 2006

Nb Sub Bhola Nath Dubey (JC-694961P), 01 Jul 2006

To be substantive Subedar (Physiotherapy Treatment Assistant)

Nb Sub Leela Datt (JC-694046W), 01 Mar 2006

Nb Sub Hari Shankar Singh (JC-694098M), 01 Apr 2006

Nb Sub Garde Ramchandra Shankar (JC-694047Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Doragari Muralidhar Naidu (JC-694083K), 01 Apr 2006

To be substantive Subedar (Health Assistant)

Nb Sub Rajendra Singh (JC-692195N), 01 Mar 2006

Nb Sub Lal Mohan Patel (JC-691840M), 16 Mar 2006

Nb Sub Shesh Mani Shukla (JC-692196W), 01 Apr 2006

To be Substantive Subedar Major (Nur Asstt.)

Sub Swapan Kumar Biswas (JC-692339H), 01 Nov 2005

To be substantive Subedar Major (Nur Tech)

Sub Shrikant Sharma (JC-214873A), 01 Dec 2005

Sub Sukhendu Kumar Karmakar (JC-214874H), 01 Feb 2006

To be substantive Subedar (Nur Asstt.)

Nb Sub Raj Kumar (JC-694013L), 01 Nov 2005

Nb Sub Kameshwar Singh (JC-694017F), 01 Nov 2005

Nb Sub Satyavir Singh (JC-694062N), 01 Jan 2006
 Nb Sub Onkar Datt (JC-694121P), 01 Feb 2006
 Nb Sub Yagya Narayan Ojha (JC-694122X), 01 Feb 2006
 Nb Sub Rajiv Ranjan Kumar Jha (JC-694124H), 01 Feb 2006
 Nb Sub Bhan Singh (JC-694174N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Man Mohan Singh (JC-694126N), 01 Mar 2006
 Nb Sub Ashok Kumar Tyagi (JC-694129F), 01 Mar 2006
 Nb Sub Meharman Singh Verma (JC-694176Y), 01 Mar 2006
 Nb Sub Dharamvir Singh Budania (JC-694131Y), 01 Mar 2006
 Nb Sub Vimal Kumaran Nair B (JC-694246M), 01 Mar 2006
 Nb Sub Sohan Pal (JC-694177F), 01 Mar 2006
 Nb Sub Achyut Kumar Ghosh (JC-694178K), 01 Mar 2006
 Nb Sub Balbir Singh (JC-694179M), 01 Apr 2006
 Nb Sub Kadam Bajirao Kundalika (JC-694308F), 01 Apr 2006
 Nb Sub Shri Krishan (JC-694333A), 01 Apr 2006
 Nb Sub Ved Prakash Samriwal (JC-694513H), 01 Apr 2006
 Nb Sub Raj Kumar Sharma (JC-694514L), 01 Apr 2006
 To be substantive Subedar (Nur Tech)
 Nb Sub Kanhiya Lal Kushvaha (JC-694238N), 01 Feb 2006
 Nb Sub Goutam Jana (JC-694239W), 01 Apr 2006
 R. C. RATURI
 Under Secy.

No. 08 dated 4th December 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Hari Kumar Pandey (No. 7114756F now JC-841830M), 05 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sri Veera Rayan Raja (No. 2568325F now JC-841909P), 19 Jan 2006**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Girwar Singh (No. 2962829M now JC-841933L), 06 Jan 2006***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Parshotam Singh (No. 10361061K now JC-841946H), 23 Dec 2005****

Hav Rulda Singh (No. 1452081K now JC-841951N), 16 Jan 2006****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sumer Singh (No. 2671655A now JC-841954F), 10 Mar 2006*****

Hav Mohammed Rasheed (No. 10165181W now JC-841955K), 07 Mar 2006*****

Hav Devendra Singh (No. 7768646X now JC-841956M), 23 Jan 2006*****

Hav Inder Singh Pathania (No. 3974405Y now JC-841957P), 18 Feb 2006*****

Hav Surendra Singh (No. 2966075A now JC-841958X), 15 Feb 2006*****

Hav Kabal Singh (No. 2463172K now JC-841960P), 30 Jan 2006*****

Hav Krishna Kumar Pandey (No. 10180788W now JC-841961X), 12 Jan 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Thomas MD (No. 10290198K now JC-841969K), 01 Feb 2006*****

Hav Baby George (No. 14219833Y now JC-841970Y), 03 Feb 2006*****

Hav Yudhvir Singh (No. 3968153F now JC-841974P), 01 Feb 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) S Dhanaraj (No. 10451598K now JC-841967Y), 15 Feb 2006*****

Hav (Clk) A Chandran (No. 10451463H now JC-841968F), 28 Feb 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Balwan Singh (No. 14333600X now JC-842002N), 10 Mar 2006*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

T. K. M. PILLAI
 Under Secy.

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGR BRANCH**

No. 09 dated 4th December 2006.—The President is pleased to make the following Promotions:—

To be Sub Tech

Nb Sub Jose K Thomas (JC-756571X), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Joydev Kundu (JC-756823Y), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Haladhar Mandal (JC-756637H), 15 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Hari Om Sharma (JC-756402N), 08 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub B Francis Exavier Isaiah (JC-756578F), 30 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub K Bharathi (JC-756573H), 07 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Sri Ram Shiromani Pandey (JC-756460A), 01 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Mahendra Kumar Kushwaha (JC-756481W), 03 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Wankhede Kundlik Krishna Rao (JC-756411X), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Bhanwar Lal (JC-756470K), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Subba Rao Kulluri (JC-756451Y), 19 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ravindera Prasad (JC-756466F), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Narender Singh Malik (JC-756798L), 01 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-756388P), 08 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Angaraj Roy (JC-756679P), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ram Bilas Tiwari (JC-756409A), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Manoranjan Roy (JC-756469P), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub V Chella Mani (JC-756467K), 12 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Shiv Kumar Kushwaha (JC-756389X), 05 Jun 2006/12 Mar 2006*

Nb Sub Jakhoo Ram Yadav (JC-756487X), 29 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub George K M (JC-756561N), 30 May 2006/01 May 2006*

Nb Sub Ratneswar Lal Karan (JC-756686L), 03 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Mangal Singh (JC-756479Y), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-756562W), 05 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Balbir Singh (JC-756408X), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Devendrappa M (JC-756493L), 03 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Bharat Singh (JC-756400L), 12 Jun 2006/01 Apr 2006*

To be Sub DVT (MT)

Nb Sub Singh Raj (JC-758558M), 27 Apr 2006/01 Apr 2006*

To be Sub Armr

Nb Sub Mohinder Singh (JC-757349H), 08 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Prakash Chandra Pathak (JC-757312F), 12 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Jai Nath Prasad Singh (JC-757318H), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

To be Sub Tech (Avn)

Nb Sub Pramod Singh Rathore (JC-756833H), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Rajesh Kumar Pandey (JC-756518M), 05 Jun 2006/01 May 2006*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Anoop Singh Yadav (JC-754415P), 01 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Sanjay Kumar (JC-754419L), 08 Jun 2006/01 May 2006*

To be Sub SKT

Nb Sub Pradumn Singh (JC-754313Y), 13 Jun 2006/01 May 2006*

To be Sub Artz (EC)

Nb Sub Parsotam Singh (JC-758230L), 07 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Bhagwan Das (JC-758088M), 13 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-757271H), 30 Jan 2006/01 Jun 2005*

Nb Sub Nur Mohammed SK (JC-757955Y), 30 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Umrao Singh (JC-757953N), 04 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Dilip Kumar Singh (JC-758056K), 30 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Tapan Kumar Mohanty (JC-758128H), 23 Jan
2006/01 Jan 2006*

To be Sub Tech

Nb Sub Munna Lal Bhat (JC-756053X), 09 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Ram Karan (JC-756052P), 07 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Bidyandhar Mandal (JC-756050K), 08 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-756049P), 09 Mar 2006/01
Feb 2006*

Nb Sub Vijay Kumar Sah (JC-756272Y), 08 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Raman Chettiyar KS (JC-756271W), 08 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Subhash Chander Pandey (JC-756043N), 08 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Rohtas Singh (JC-756047K), 08 Mar 2006/01
Feb 2006*

Nb Sub Raghu Nath Singh (JC-755884K), 03 Feb 2006/
01 Dec 2005*

Nb Sub Tek Bahadur Sharma (JC-755978F), 04 Feb
2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Ram Autar Prasad (JC-755981F), 19 Dec 2005/
01 Dec 2005*

Nb Sub Ajaya Ghosh P (JC-755996K), 12 Jan 2006/01
Dec 2005*

Nb Sub M Chengal Raya Reddy (JC-756153H), 06 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Surindra Singh Kushawaha (JC-756156L), 09
Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Desh Ram Jat (JC-755693P), 11 Nov 2005/01
Aug 2005*

Nb Sub Kailash Singh Kushwaha (JC-755852F), 14 Feb
2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Kaman Singh (JC-755853K), 30 Jan 2006/01
Dec 2005*

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-755855P), 18 Jan 2006/
01 Dec 2005*

Nb Sub Udaya Kumar R (JC-756097P), 08 Feb 2006/01
Dec 2005*

Nb Sub R Selvaraj (JC-756008L), 04 Feb 2006/01 Jan
2006*

Nb Sub Habibur Rahaman (JC-756000Y), 01 Feb 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Jaspal Singh (JC-756001F), 27 Jan 2006/01 Jan
2006*

Nb Sub Surender Kumar (JC-756012N), 17 Feb 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Narotam Kumar (JC-756015F), 26 Jan 2006/01
Jan 2006*

Nb Sub Mathew VV (JC-756018P), 15 Feb 2006/01 Jan
2006*

Nb Sub Krishan Pal (JC-756019X), 15 Feb 2006/01 Jan
2006*

Nb Sub Munish Kumar (JC-755946Y), 27 Jan 2006/01
Jan 2006*

Nb Sub Upendra Kumar (JC-755950F), 24 Jan 2006/01
Jan 2006*

Nb Sub Sukhdev Singh Rana (JC-756208F), 30 Jan
2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Sarinadra Kumar (JC-756393A), 30 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Rajendran Pillai K (JC-755953P), 27 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Uday Chandra Mishra (JC-756140L), 23 Jan
2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Harish Chandra Singh (JC-756096M), 08 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Kaushalendra Kumar Sinha (JC-756014P), 01
Mar 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Vijay Kumar Jha (JC-753117M), 27 Jan 2006/
01 Jun 2006*

Nb Sub Surjit Singh (JC-756313X), 13 Mar 2006/01 Feb
2006*

To be Sub Artzn (AVN)

Nb Sub Narendra Singh Negi (JC-756894A), 06 Feb
2006/01 Jan 2006*

To be Sub Rec Mech

Nb Sub KH Joynal Hauque (JC-752616P), 28 Jan 2006/
01 Dec 2005*

To be Sub RT

Nb Sub Vinod Kumar Upadhyay (JC-751244H), 16 Feb
2006/13 Jan 2006*

To be Sub Armr

Nb Sub Thakur Singh Gurjar (JC-756082M), 21 Oct
2005/01 Sep 2005*

Nb Sub Nandlal Mahto (JC-756717A), 21 Oct 2005/01
Sep 2005*

Nb Sub Suresh Chandra (JC-756130F), 31 Jan 2006/01 Sep 2005*

Nb Sub Sunil Kumar (JC-756766M), 27 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub M Pappa Chan (JC-756960X), 30 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Khajure Shiv Darshan N (JC-757094N), 05 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Jugal Kishor Soni (JC-757095W), 13 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Kashi Nath (JC-757157L), 28 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Karam Chand (JC-757315P), 01 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Gangadhar (JC-757316X), 08 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Jaswant Singh (JC-757046N), 31 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Gopal Mishra (JC-756131K), 10 Jan 2006/01 Sep 2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Mohd Muzafer Shah (JC-754206X), 02 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub M Paul Raj (JC-754209L), 07 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Kiran Sankar Roy (JC-754207A), 06 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Vinod Kumar Sharma (JC-754284P), 06 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Ugrasen Singh (JC-754285X), 09 Mar 2006/01 Feb 2006*

To be Sub DW

Nb Sub Jayaprakash N (JC-757827F), 28 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Sankaran Kutty Nair C (JC-757948H), 29 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Thakur Singh (JC-757999W), 25 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Malin Chandra Bal (JC-757981A), 30 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Budhraj Singh (JC-758001A), 16 Feb 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Ram Bachan Singh (JC-7580003L), 24 Feb 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Sher Singh (JC-758154K), 10 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Gopal Dass (JC-758158A), 27 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Raghuvir Singh (JC-758159H), 15 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Mahendra Prasad Vishwas (JC-758166Y), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Bachcha Rai (JC-758167F), 11 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Sarvan Kumar (JC-758168K), 08 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Shiv Kumar (JC-758169M), 07 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Atin Kumar Ghose (JC-758371A), 04 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-758419H), 07 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Rajendra Kumar (JC-758865K), 10 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Madheshwar Singh (JC-758751Y), 14 Mar 2006/01 Feb 2006*

To be Sub Tech Avn

Nb Sub Bir Singh (JC-756503K), 25 Apr 2006/01 Mar 2006*

To be Sub Armr

Nb Sub Murari Kumar (JC-755961N), 02 May 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Bhup Narayan Thakur (JC-757218X), 27 Jan 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Skt

Nb Sub Suresh (JC-754312W), 02 May 2005/01 Mar 2006*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Chote Lal Yadava (JC-754005Y), 17 Apr 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Kamlesh Rai (JC-754328F), 01 May 2006/01 May 2006*

To be Sub Artn (EC)

Nb Sub Satayendra Narain Singh (JC-757053K), 06 May 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Pawan Kumar (JC-758245N), 08 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Durai Swamy (JC-758291H), 06 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sushil Kumar Shukla (JC-758294W), 03 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Devesh Chandra Sharma (JC-757165K), 01 May 2006/06 Dec 2005*

To be Sub DVR (MT)

Nb Sub Ram Chandra Pandey (JC-758170F), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Ram Singh (JC-758422H), 05 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Santosh Kumar Tiwari (JC-758421A), 09 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Shiv Ram Singh (JC-758431K), 21 Apr 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Hans Bahadur Singh (JC-758430F), 22 May 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Lal Singh (JC-758420X), 24 Apr 2006/01 Mar 2006*

To be Sub Tech

Nb Sub Krishna Gopal (JC-756006A), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub S Kishor Kumar Saheb (JC-755258A), 13 Apr 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Gopal Singh Chauhan (JC-756158F), 24 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Narendra Singh Dhakarey (JC-756159K), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Shambu Lal Puri (JC-756237W), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub A Kumar Vishwakarma (JC-756183A), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Kewal Kishore (JC-756281A), 10 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Om Prakash (JC-756250A), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Prema Kumar Paruchuri (JC-756372K), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Laxmi Datt (JC-756616M), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ram Babu (JC-756439X), 27 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Rajbir Sharma (JC-756629K), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub T N Bhakthavathsalam (JC-756634P), 24 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Balbir Yadav (JC-756675Y), 29 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Anup Kumar Ghosh (JC-756746P), 19 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Navin Kumar (JC-756624L), 19 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sompal Singh (JC-757369W), 25 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Akhilesh Pandey (JC-756245P), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub A Bala Raja (JC-756448Y), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Rajendra Kumar Upreti (JC-753856Y), 20 Apr 2006/07 Sep 2005*

Nb Sub Shibu V S (JC-756139W), 09 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Balbir Singh (JC-756162K), 19 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ramjeet Prasad (JC-756168L), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Bhure Shivaraj (JC-755886P), 10 May 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Parama Nanda Hazra (JC-756284N), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Surjya Narayan Sahu (JC-756285W), 25 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Jayanta Kumar Kundu (JC-756462L), 25 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Virendra Singh (JC-756142W), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ram Chandra (JC-756143Y), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Shailesh Kumar (JC-756146M), 09 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Satish Kumar (JC-756185L), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub R Anburaj (JC-756280X), 26 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Shiv Kumar Singh (JC-756287F), 02 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sarabdev Singh Yadav (JC-756296H), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Rewat Ram (JC-756246X), 08 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Anandpal Singh Chauhan (JC-756368F), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub M Thangavel (JC-756375X), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Surat Singh (JC-756438P), 06 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Lalan Prasad Yadav (JC-756373M), 09 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Basudeo Prasad Roy (JC-756622A), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sukul Prasad Saha (JC-756446N), 24 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Arun Kumar Maharaj (JC-756627Y), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sumpuran Singh (JC-756374P), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ravivaran Kumar Gar G (JC-756397W), 28 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sailen Ray (JC-754062A), 15 Apr 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Desai Raghunath Shivaji (JC-755506L), 27 Mar 2006/01 Jul 2005*

Nb Sub Vijay Prakash Tiwari (JC-756625N), 19 May 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Aidan Ram (JC-756618X), 01 May 2006/01 Mar 2006*

To be Sub Artzn Avn

Nb Sub Sawai Singh (JC-756003W), 22 Apr 2006/24 Jul 2005*

To be Sub Tech

Nb Sub Surender Singh Jadoun (JC-756048M), 18 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Vinod Singh Rawat (JC-756161F), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Md Zibrail (JC-756276P), 27 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Om Prakash Nehra (JC-756378L), 29 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Asim Chakraborti (JC-756396N), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub P Jagadeesh (JC-756399F), 26 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Prakasan E R (JC-756403Y), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ishwar Singh (JC-756491A), 02 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Parbhat Singh (JC-756680X), 01 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Brij Raj (JC-756819W), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Sahi Ram Yadav (JC-757408K), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ombir Singh (JC-756683X), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Ram Kanwar Malik (JC-756412A), 07 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Dhan Singh (JC-756475H), 03 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Patil Samadhan Hari (JC-756670A), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Pumanand Pandey (JC-756478W), 01 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Rati Ram (JC-756461H), 07 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Panna Lal (JC-756514W), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Vijay Kumar Singh (JC-756671H), 02 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub K Basi Reddy (JC-756484K), 05 Jun 2006/01 Apr 2006*

Nb Sub Janak Singh (JC-756560L), 05 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Oumkar Singh (JC-756495W), 07 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Babu Lal (JC-756483F), 08 Jun 2006/01 Apr 2006*

To be Sub Armr

Nb Sub Mant Prasad (JC-757333X), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

To be Sub Artzn NE

Nb Sub Bishan Pal Singh (JC-756770L), 06 Jun 2006/01 May 2006*

To be Sub Artzn EC

Nb Sub Kochumani P P (JC-758393Y), 06 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Bhagat Singh Bisht (JC-757552Y), 01 May 2006/06 Dec 2005*

Nb Sub Balram Singh (JC-758323A), 07 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Ram Nath Singh (JC-758480M), 06 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Harish Chandra (JC-756776M), 27 Apr 2006/06 Dec 2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Paramjit Singh (JC-754286A), 20 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Nahar Singh (JC-754329K), 06 Jun 2006/01 May 2006*

Nb Sub Manna Lal Verma (JC-754417A), 03 Jun 2006/01 May 2006*

To be Sub Tech Avn

Nb Sub Rajinder Singh (JC-756519P), 06 Jun 2006/01 May 2006*

To be Sub RT (Pandit)

Nb Sub Dinesh Datta Ojha (JC-752255F), 06 Jun 2006/
01 May 2006*

*(Gtd ante dated seniority).

N. K. KASHMIRA
Under Secy.

No. 10, dated 7th December 2006.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Kunal Tewari (MR-07476P) (75722), AMC—13 Jul 2005

Shilpa Asthana (MR-08121W) (75787), AMC—21 Jan 2006

Srujana D (MR-07536Y) (75914F), AMC—05 Feb 2006

Saurabh C Bobdey (MR-08110K) (75797R), AMC—
18 Feb 2006

Ranjan Sarkar (MR-08120N) (75801), AMC—06 Mar 2006

A Anand (MR-07462P) (75720), AMC—13 Jul 2005

Sameer Taneja (MR-07468W) (75721), AMC—13 Jul 2005

Ritu Mehta (MR-07478A) (AF-26045), AMC—13 Jul 2005

Viking Bhanoo (MR-08117N) (75792), AMC—21 Jul 2005

Marak Pertin (MR-08116L) (MS-14146), AMC—10 Aug 2005

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 11, dated 7th December 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col. to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

IC-39508 Rajat Jairath, AAD—01 Oct 2005

IC-39950 S C Verma, Arty—01 Oct 2005

IC-39965 B Mukherjee, Inf—01 Oct 2005

IC-39978 Jagdeep Singh Mann, Inf—01 Oct 2005

IC-40022 A K Bhatt, Inf—01 Oct 2005

IC-40091 MD Singh, Guards—01 Oct 2005

IC-40180 P Kumar, Inf—01 Oct 2005

IC-40186 T K Sachdev, Arty—01 Oct 2005

AJAY GOEL
Dy. Director
MS-8A

No. 12, dated 1st December 2006.—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj TK Kaushik (TA-42195), Infantry—16 Dec 2004

Maj CK Roy (TA-42235), Infantry—16 Dec 2004

Maj PA Pandit Rao (TA-41912), Infantry—16 Dec 2004

Maj P Sampath (TA-42008), Infantry—16 Dec 2004

Maj MK Mehra (TA-42275), Infantry—06 Oct 2005

Maj SK Dogra (TA-41936), Infantry—16 Dec 2004

Maj HRS Rana (TA-42385), Infantry—16 Dec 2004

Maj JS Ahlawat (TA-42155), Infantry—16 Dec 2004

Maj Vijay Kumar B (TA-42476), Infantry—16 Dec 2004

Maj Rakesh Kumar Brar (TA-42192), Infantry—16 Dec 2004

Maj RK Dogra (TA-42032), Infantry—16 Dec 2004

Maj VV Dineshan (TA-42039), Infantry—16 Dec 2004

Maj Ashwani Kumar (TA-42012), Infantry—16 Dec 2004

Maj JS Anand (TA-42234), Infantry—16 Dec 2004

Maj Hari Singh (TA-42101), Infantry—16 Dec 2004

Maj SK Padhi (TA-42152), Infantry—16 Dec 2004

N. KALIAPPAN
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 13, dated 6th December 2006.—The President is pleased to promote the following officers from their existing

grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2006 (FN) as mentioned against each:—

Name, Lab/Estt., Existing Grade, Promoted to and Pay Scale of Promoted Grade

S/Shri/Smt.
VS Rokade, ARDE (TO 'C') (TO 'D')—Rs. 12,000-375-16,500/-

MB Gaikwad, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

VB Pol, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

BP Badawe, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

R Vijayapartheean, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

ND Khot, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

RS Birajdar, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

VM Apte, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

AN Bhate, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

SP Tare, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

VV Gangote, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

HV Khatavkar, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

MV Suryawanshi, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

PB Pandya, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

NM Chakradeo, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

VE Yadav, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

RD Kadam, ARDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

KB Borse, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

KS Phirange, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

GB Medhe, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

A Sobha, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

RG Nandanwar, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

AM Morgaonkar, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

SR Sangawar, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

JA Kanetkar, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

NS Mandlik, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

AD Shirgire, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

MS Naidu, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

TK Ekbote, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

K Kumaradhasan, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

JS Kale, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

VS Jagtap, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

NG Tate, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

MS Thengdi, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

SN Khandade, ARDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

AAD Durai Raj, CVRDE (TO 'C') (TO 'D')—Rs. 12,000-375-16,500/-

S Pasupathy, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

V Krishnamurthy, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

P Jawaharlal, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

C Santhamoorthy, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

SY Venkataraman, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

TS Gajendiran, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

K Prabhakar Rao, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

DDA Mony, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

G Anandan, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

S Maniyam, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

R Kothanda Raman, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

DM Sekhar, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

SR Radhakrishnan, CVRDE (TO 'B') (TO 'C')—Rs. 10,000-325-15,200/-

R Vinoba Krishnan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

AM Swaminathan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Kandavelu, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

M Murugan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

NV Nandakumar, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

JK Rajendra, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

Rajeswari Vembu, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

L Gowdhaman, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

G Umapathy, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

J Sankaran, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Ethiraj, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

N Ganesan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

M Kaladevi, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Balasubramanian, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

KV Otrumal Selvan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

K Viswanathan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

K Sundaram, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

K Rajan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

B Mohan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

K Kothandan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

P Narasimhan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

M Rajendran, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Vinayagam, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

N Baskaran, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

S Thirugnanasambandan, CVRDE (TO 'A') (TO 'B')—Rs. 8,000-275-13,500/-

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' and TA 'C' TO w.e.f. 01 Sep 2006 (FN).

Name, Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to and Pay Scale of Promoted Grade

S/Shri/Smt.

HN Thulasiammal, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

AR Nagarajan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

C Victor Irudayaraj, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

C Ponnaiyan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

P Rajmohan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

P Varadan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

BSM Simhadri, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

D Manoharan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

K Perumal, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Mohan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

G Natarajan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

KV Mukundan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

Saroja Nagarajan, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

P Thangaraju, CVRDE (STA 'C') (TO 'C')—Rs. 7,450-225-11,500/-

K Chandran, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Krishna Kumar, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

M Gnanaseharan, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Murugesan, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

V Sekar, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

S Giridharan, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

PP Easwaran, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

E Rajavel, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

R Dhakshnamurthy, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

G Vijayaram, CVRDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

M Veeraraghavan, CVRDE (TA 'C') (TO)—Rs. 7,450-225-11,500/-

SR Kharate, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

SS Deshpande, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

YB Salkar, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

DV Tandale, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

SR Bhingare, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

SK Verma, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

RN Pataki, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

DR Jadhav, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

RK Katkar, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

UJ Bhosale, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

EM Jadhav, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

JS Sable, ARDE (STA 'C') (TO 'A')—Rs. 7,450-225-11,500/-

YF Shinde, ARDE (TA 'C') (TO)—Rs. 7,450-225-11,500/-

B. B. SHARMA
Joint Dir. (Pers-I)

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH &
DEVELOPMENT
(DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT
ORGANISATION)

No. 14, dated 06th December 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

Acting Brig to Substantive Brig

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

MR-3539 Brig, JK Bansal, VSM, AMC—01 Jul 2005

MR-03672 Brig, RP Tripathi, AMC (Retd.)—01 Sep 2003

MR-4480 Brig, RK Marwaha, AMC—01 Jun 2005

Acting Maj Gen to Substantive Maj Gen

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-24544 Maj Gen S Vasudevan, Engrs (Retd.)—12 May 2004

IC-23850 Maj Gen S S Dahiya, AVSM, VSM, EME—01 Jan 2005

Acting Brig to Substantive Brig

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-27555 Brig SN Dikshit (Retd.), VSM, EME—30 Sep 2003

IC-27212 Brig J K Sharma, EME—12 May 2004

Acting Maj Gen to Substantive Maj Gen

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-23289 Maj Gen HM Singh, AC—07 Jun 2004

Acting Brig to Substantive Brig

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-34095 Brig Naginder Singh, AC—01 Nov. 2004

Acting Col to Substantive Col

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-42888 Col Ajay Gupta, AC—08 Sep 2005

Acting Lt Col to Substantive Lt Col

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-42888 Lt Col Ajay Gupta, AC—08 Sep 2001

Acting Brig to Substantive Brig

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

IC-30704 Brig Anoop Malhotra, Arty—07 Jun 2004

Acting AVM to Substantive AVM

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

11930 AVM KK Bandyopadhyay, Adm (Retd)—01 Jul 2004

Acting Air Cmde to Substantive Air Cmde

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

14361 Air Cmde ND Sharma, AE(L)—01 Jul 2004

14335 Air Cmde VB Goley, AE(L)—01 Jan 2005

15082 Air Cmde PP Katarki, AE(L)—05 Aug 2005

Acting Gp Cap to Substantive GP Capt

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

15298 Gp Capt I Sudhakar, AE(L)—27 Jan 2005

Acting Wg Cdr to Substantive Wg Cdr

Name, No. & Rank, Subs Rank to be Granted from

19708 Wg Cdr U Raja Babu, AE(M)—11 Sep 2004

RANBIR SINGHAddl Dir (Pers)
for DG Res & Dev**AIR FORCE**

No. 15, dated the 05th December 2006—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE**AE(L) BRANCH**

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Chaithanya SS (24143) wef 16 Dec 2004.

SHORT SERVICE COMMISSION

Substantive Flight Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

F(P) BRANCH

(Ms) Sujata Dwivedi (25919), (Ms) Ranjana Velu (25920) w.e.f. 18 Dec 2005

ADM BRANCH

(Mrs) Anisha Hatwal (25921), (Ms) Manju Bhaskar (25922), (Ms) Garima Sharma (25923), (Mrs) Reena Kumaria (25924), (Ms) Rohina Saxena (25925), (Ms) Mahima Sharma (25926), (Mrs) Julie Jake Jacob (25927), (Ms) Sujata Tiwari (25928) w.e.f. 18 Dec 2005.

LGS BRANCH

(Mrs) Rich Markandeya (25929), (Ms) Kuljinder Hundal (25930), (Ms) Seema Kanoujia (25931), (Ms) Jashaswi Rath (25932) w.e.f. 18 Dec 2005.

ADM BRANCH

(Mrs) Mandeep K Chawla (26171), (Mrs) Bolkaranda Lathika Madaia (26172), (Ms) Farzana Nahid (26174),

(Ms) Rochelle C D'Silva (26175) (Ms) Shalini Bhardwaj (26176) w.e.f. 17 Jun 2006

ACCTS BRANCH

(Ms) Pushpa Mishra (26177), (Ms) Archana Rogers (26180) w.e.f. 17 Jun 2006.

EDN BRANCH

(Mrs) Anuradha Sharma (26181) w.e.f. 17 Jun 2006.

AE(L) BRANCH

H. K. Singh (26014) w.e.f. 03 Jan 2006.

AE(M) BRANCH

L K Tandon (26253) w.e.f. 10 Jul 2006.

AE(L) BRANCH

V Singh (26257) S Singh (26259), S Damodar (26263), (Ms) Chetna Choudhary (26264), (Mrs) Kulkarni J D (26265), (Ms) S Kalpana (26268) w.e.f. 10 Jul 2006.

AE(L) BRANCH

(Ms) Reshu Saini (26270) w.e.f. 18 Jul 2006.

F(P) BRANCH

(Mrs) S Sirohi (24110) w.e.f. 03 Aug 2005.

ADM BRANCH

V Prakash (26188), R Nambiar (26189), M V Kumar (26190), K Santhosh (26191), G K Sharma (26192), M S Das (26193), V Sateesh (26194), A Verma (26195), A Chaudhary (26196), A Nautiyal (26197), R Ahlawat (26198), J Prasanth (26199), P K Tailang (26200), P V S Subramaniam (26203), A Reji (26205) N Singh (26207) w.e.f. 23 Jun 2006.

Substantive Flight Lieutenant to be Substantive Squadron Leader

ACCTS BRANCH

G Yadav (25400) w.e.f. 19 Dec 2005.

EDN BRANCH

R K Yadav (25699) w.e.f. 19 Jul 2005.

ADM BRANCH

F C C DaCosta (25889), M Rambabu (25890), S Kumar (25891), A Singh (25892), M T Manoj (25893), S K Sharma (25894), P K Jha (25895), D K Singh (25896), V K Tomar (25897), M Bhardwaj (25898), A P Singh (25899), T S Vasudev (25900) w.e.f. 18 Dec 2005.

LGS BRANCH

MA Rao (25901), A K Nair (25902), A Tripathi (25903), C H M Rao (25904), Y Harinath (25905), K Chauhan (25906), K G Manoj (25907), T Varghese (25908), N Singh (25909), K M Rakesh (25910), R D Yadav (25911), R S Kumar (25912), S Srinidhi (25913), T Singh (25914), R Jain (25915), S Mathews (25916), S K Jain (25917), R Sharma (25918) w.e.f. 18 Dec 2005

ADM BRANCH

R S Kushwaha (26132), A K Chandel (26134), J S Hooda (26135), P S Negi (26136), S S Nain (26137), M Prasad (26138), A D Prasad (26139), A Singh (26140), P K Yadav (26141), N A Jani (26142), S Parmeshwaran (26143), N Kumar (26144), V Acharya (26145), T Chaudhry (26146), M Srivastava (26147), A Kumar (26148), R Choudhary (26149), P K Sharma (26150), B Ravindranath (26151), N K Rana (26152), A Pant (26153), M Rajkumar (26155), M K Sah (26156) w.e.f. 17 Jun 2006.

ACCTS BRANCH

V Venkataramanan (26157), J R Chandra (26158), S Saxena (26159), S Verma (26160), S Singh (26161), V Bhatia (26162), M I Akhtar (26163) w.e.f. 17 Jun 2006.

EDN BRANCH

C S Pardesi (26165), R Kumar (26166), S S Shastri (26167) w.e.f. 17 Jun 2006.

MET BRANCH

D Bhatt (25812), w.e.f. 17 Jun 2006.

F(P) BRANCH

K B Singh (24540) w.e.f. 16 Dec 2005.

F(P) BRANCH

A Khurana (25819), P Grover (25820), H S Luthra (25821), G Dantale (25822), E C Rodrigues (25823), T Gupta (25824), M Srikanth (25825), K H Singh (25826), S S Rao (25827), P Bhola (25828), A Sharma (25829), S Gunasekaran (25830), D Bagchi (25832), N S Panwar (25833), G Joseph (25835), A Kumar (25836), R Kumar (25837), T S Vaidya (25839), U Govil (25841), P Anand (25842), A P Kadav (25843), V Yadav (25844), R Shukla (25845), S A Gadre (25846), P Suryawanshi (25848), S P Dora (25849), H Upadhyaya (25850), J Pothan (25851), S K Ahuja (25852), D Kumar (25853), S Gupta (25854), S Mehra (25855), D Hariharan (25856), M Pargunan (25857), R Jain (25859), P S Chavan (25861), A B Dhanake (25863), S Sharma (25864), B S Grewal (25865), Zuber A V Shaikh (25866), R K Alawadhi (25867), F A Singh (25868), A Sarmai (25869), S K Deshwal (25870), T K Chaudhri (25871), V K Joshi (25872), G Narain (25873), K Somnathan (25874), V Kuttappan (25875), A Vinoba (25876), S Kumar (25877) w.e.f. 18 Dec 2005.

ADM Branch

R Kumar (25847) w.e.f. 18 Dec 2005.

AE(L) Branch

H C Mann (25814), N Nagarajan (25815) w.e.f. 18 Dec 2005.

V Kundu (26017), V K Bandhu (26018), A K Bachheti (26019), S Singh (26020), R Khajuria (26021), P Nagpal (26022), R Singh (26024) w.e.f. 03 Jan 2006.

AE(L) Branch

P S Khutail (25771) w.e.f. 24 Jul 2005.

AE (M) Branch

SS Hiremath (26412), w.e.f. 01 July 2006.

AE (M) Branch

GI Girijesh (26398), R Karthikeyan (26399), G Kaishtha (26400), S Kumar (26401), T Namgyal (26402), K Singh (26403), R Anandkumar (26404), P Padmarajan (26405), HG Joshi (26406), R Yadav (26407), SK Vashishtha (26408), J Bijukumar (26409), R Syaman (26410), J Jayaraj (26411), KC Sunish (26413), K Deo (26414), DS Uddain (26415), N Sharma (26416), N Bagha (26417), AR Kolekar (26418), BS Soodan (26419), AG Nair (26420), TR Padmaraj (26421), D Singh (26422), M Chowdhury (26423), S Sharma (26424), S Ghosal (26454), BC Patil (26507), w.e.f. 07 Jan 2006.

AE (L) Branch

R Singh (26430), w.e.f. 01 Jul 2006.

AE (L) Branch

A Resutra (26425), N Aggarwal (26426), S Rai (26427), S Sivakumar (26428), S Yuvaraj (26429), AK Kaushal (26431), D Mishra (26432), D Shahjee (26433), SP Amithanand (26434), LB Singh (26435), T George (26436), NK Tyagi (26437), R Singh (26438), A Sharma (26439), P Singh (26440), VM Damodharan (26441), LA Madan (26442), S Chandran (26443), SN Sudheendra (26444), DR Chandran (26445), A Tiwari (26446), PJ Badkas (26447), A Kaushik (26448), M Mehendru (26449), S Subhash (26450), RV Paldhikar (26451), S Yadav (26452), SK Sahu (26453), A Prasad (26455), AR Khan (26456), R Chandra (26508), NK Gupta (26509), w.e.f. 07 Jan 2006.

F (N) Branch

K Kumar (24967), w.e.f. 16 Dec 2004.

F (N) Branch

A Bisht (25878), WS Vas (25879), RK Reddy (25880), AV Reddy (25881), R Chand (25882), KS Aswal (25883), J Mathew (25884), VS Shrivtare (25885), A Sahay (25887), YA Kumar (25888), w.e.f. 18 Dec 2005.

F (N) Branch

A Jha (26121), DK Ojha (26122), GP Kumar (26124), J Sankar (26125), S Ghosh (26126), D Panda (26127), M Lakra (26128), RR Bhardwaj (26129), S Amrutar (26130), Vimaljeet Singh Rathore (26131), w.e.f. 17 Jun 2006.

ADM Branch

RK John (25701), CP Pillai (25702), S Prakash (25703), BM Dhananjaya (25704), R Agarwal (25707), P Chawal (25708), M Bhog (25709), JPS Verma (25710), B Kumar (25711), VK Mohan (25712), SP Devalla (25713), PN Chengappa (25714), NS Yadav (25715), TD Karnatak

(25717), RC Vallabhaneni (25718), P Kaushik (25719), A Prakash (25721), P Kulshrestha (25722), w.e.f. 31 Mar 2006.

S. SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3 (D)

No. 16, dated 7th December 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

ACCTS BRANCH

To be Substantive Air CMDE

Rank, Name, Number, Br and Date

A/C (Actg) B Singh (13683), Accts—01 Mar 2006

A/C (Actg) S Samaddar (14538), Accts—01 Apr 2006

EDN BRANCH

To be Substantive Air CMDE

Rank, Name, Number, Br and Date

Air CMDE (Actg) AS Sandhu (Retd.-30 Apr 2006) (16273), EDN—03 Apr 2006

Air CMDE (Actg) Satyendra Kumar (16283), EDN—15 May 2006

MET BRANCH

To be Substantive Gp Capt

Rank, Name, Number, Br and Date

GP Capt (Actg) MK Dutta (14426), Met—23 Dec 2005

K. V. SHANKAR
Jt. Director of Personnel (Officers) 2 (B)

No. 17, dated 1st December 2006.—The President is pleased to retire Shri R C Ahuja, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30 Nov 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

S. K. DEB
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 18, dated 7th December 2006.

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be 2/Lts w.e.f. 11 Jun 1988)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification, published on 20 May 1989 under the heading "Regular Army (Permanent Commission)" in Regular Army is hereby amended as under :—

Name against Personal No. IC-47739L

For—Mrinal Manti Nath, Inf

Read—Mrinal Kanti Nath, Inf

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

CORRIGENDUM

In the Govt. of India, Ministry of Defence Gazette Notification published on 23 Sep 2006 under the heading "Regular Army (Short Service Commission)" and sub-heading "To be Lt" following is hereby amended as under :—

In Para 1, Line one

For—45

Read—44

In Para 1, in the table

For—WS-01126M, P Praveena, EME

Read— — Blank—

In Para 2, Line one

For—20

Read—21

In Para 2, in the table

Insert " 1092 WS-01126M P Praveena—04 Apr 2005 EME" just below the row "1130 WS-01122W Salvia N Pillai 04 Apr 2005—Engr".

CHANDER SHEIKHAR

Lt. Col.

AMS-8B